

Date: 5<sup>th</sup> September, 2023

Listing Department/ Department of Corporate Relations, The Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai, Fax- 022-22722037/39/41/61/3121/22723719

Listing Deptt. National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 51, Fax- 022-26598237/38- 022-26598347/48

Stock Code: - At BSE- 532524; At NSE- PTC

## SUB: Public Notice- Post-dispatch of 24<sup>th</sup> AGM notice u/r 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

#### **REF:** Information regarding 24<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM).

This is in furtherance to our intimation letter dated August 29, 2023 regarding newspaper advertisement of publication of Notice of 24<sup>th</sup> AGM, the Company has completed dispatching of electronic copies of AGM Notice & Annual Report for the FY 2022-23 by September 4, 2023 to all the members, whose email ids are registered with the company / depository participant(s). Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI Listing Regulations, we hereby enclose copies of the newspaper published in Business Standard (English & Hindi) both dated September 5, 2023, regarding completion of dispatch of AGM Notice & Annual Report.

The cuttings of notice, which has been published in Business Standard (English and Hindi Edition) are attached herewith.

Please take the same on your record.

Thanking you,

For PTC India Limited

(Rajiv Maheshwari) Company Secretary FCS- 4998

## 2 COMMERCIAL

#### GALLANTT

#### GALLANTT ISPAT LIMITED

Regd. Office: "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi – 110014, Tel No. 011-45048767, Fax: 011-45048767, Email ID: csgm@galantt.com Website: www.galantt.com, CIN: L27109DI 2005PI C350524

## INFORMATION REGARDING 19<sup>17</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF GALLANTT ISPAT LIMITED (TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING) / OAVM (OTHER AUDIO VISUAL MEANS)

NOTICE is hereby given that the 19" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the 30" day of September, 2023 at 12.30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, respectively, read with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI has vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/2023/001 dated January 05, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as "SEBI Circulars") and other applicable circulars permitted holding of the Annual General Meeting ("Meeting/AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual General meeting ( weeking only introduit video contention ( ) to poster solutions, Means ("OWM"), without the physical presence of the Members, Directors, Audiors, Debenture Trustee or other eligible persons at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act, 2013"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEI Listing, Regulations) and advessed MCA and SEBI Circulars, the AGM of the Company will be conducted through VCIOAVM.

The Notice of the 19<sup>°</sup> AGM setting out the businesses to be transacted thereat and the Annual Report for the year ended 31° March, 2023 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. Members may note that the Notice of 19" AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website www.gallant.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com; and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting, voting during the time of AGM and participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the AGM.

If your email id is already registered with the Company/ Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address.

In case you have not registered your email address with the Company/ Depository and/or not updated your bank account mandate for receipt of dividend, please follow instructions below:

#### To register your email address for obtaining Annual Report, Notice and Physical Holding login details for e-voting etc. Send an email request to the Company at csgm@gallant.com providing Folio no., Name of Shareholder(s), scanned copy of the share certificates (front and back), scanned copy of self-attested Pan Card of all holders, scanned copy of self-attested Address proof of all holders for registering

email address. For receiving dividends directly in your bank accounts through National Electronic Clearing System (NECS) – Dividend not recommended by Board for F.Y. 2022-23

Send NECS Mandate Form available on the Company's website http://www.gallantt.com duly filled in and signed by all holders along with below mentioned attachments addressed to 'The Company Secretary, Gallantt Ispat Limited, "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Dehi-110014. Self-Attested Conv of Pan Card of all holders.

· Cancelled Cheque Leaf having Name (if name is not printed on cheque self-attested copy of first page of pass book) of all holders.

Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

The shareholders are requested to update their PAN with the Company (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode).

For Gallantt Ispat Limited Place: New Delhi

Dated: September 04, 2023

## LSFS Engineering Services

L&FS Engineering and Construction Company Limited CIN: L45201TG1988PLC008624 od. Office: D.No.8-2-120/113, B-Block, 1st Floor, Sanail Info Park, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500033

Ph: 040-40409333; Fax: 040-40409444; Email: cs@ifsengg.com; Web: www.ifsengg.com NOTICE OF 34<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

### & E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 34" Annual General Meeting ('AGM') of IL&FS Engineering and Construction Company Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 26" September, 2023 at 3 PM (IST) through Video Conferencing ('VC'). Other Audio Visual Means ('OAVM') without the physical presence of Members at a common venue. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

2.In accordance with General Circular No.10/2022 dated 28" December 2022, General Circular No.2/2022 dated 5\* May 2022, General Circular No.2/2021 dated 13" January, 2021, General Circular No.20/2020 dated 5" May, 2020, General Circular No.14/2020 dated 8" April 2020, General Circular No.17/2020 dated 13" April, 2020 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with circulars issued by the Securities and Exchange Board of India("SEBI") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Notice of AGM and the Annual Report containing inter alia, the Board's Report, Auditor's Report, Audited Standalone and Consolidated Financial Statements etc. for the financial year ended 31" March, 2023 have been sent electronically on 28" August, 2023 to those members, whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The copy of the Report is also available on the Company's website i.e. www.llfsengg.com, websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL), appointed by the Company for providing remote evoting / e-voting facility at the AGM at www.evoting.nsdl.com

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through VC/OAVM shall only be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013("Act")

4. The notice of AGM inter-alia includes the process and manner of remote e-voting / e-voting and instructions for participation in the AGM. The remote e-voting period commences on Saturday, 23" September, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Monday, 25" September, 2023 at 5:00 P.M. (IST) (both days inclusive)

5. The Register of Members for the purpose of AGM will be closed from Tuesday, 19<sup>1</sup> September 2023 to Tuesday, 26" September, 2023(both days inclusive)

The out-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of Members to avail electronic voting facility will be Monday, 18" September 2023. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the list of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM. Any person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

Any person who acquires shares and become member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on cut-off date may obtain login Id and password by sending a request over email at evoting@nsdl.co.in mentioning demat account number/folio number, PAN, name and registered address. However Members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/e-voting at the AGM. 8.A member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. 9.Shareholders will be able to inspect the documents referred to in the Notice electronically without any fee from the date of circulation of Notice upto the date of AGM. Members seeking inspection of such documents can send an email to cs@lfsengg.com

10. In case of any queries relating to e-voting, one may refer the e-voting user manual for the shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No. 022- 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send an email to evoting@nsdl.co.in. By Order of the Board

For IL&FS Engineering and Construction Company Limited

**Rajib Kumar Routray** Company Secretary & Compliance Officer

## TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED CIN: L921990L1997PLC088865 Regd. Off.: Sec-B, PKT-1, Space No-301 and 302 LSC-7, Community Centre, Vasant Kunj, Sector B, New Delhi, South West Delhi-110070, India. Contact No.: +91 9810108253

Email: cs@touch/ ood in Website: www.tou

NOTICE

Notice is hereby given that the 26" Annual General Meeting ("AGM") of Touchwood Entertainment Limited (the "Company") is scheduled to be held on Friday, 29" September 2023 at 4 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Secretarial Standard-2 and the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), without the physical presence of the members to transact the Ordinary and Special Business as set out in the AGM Notice.

in compliance with the above circulars, electronic copies of the notice of the AGM along with Annual Report for the financial year 2022-2023 ("Annual Report") has been sent through e-mail to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository") and Transfer Agent, Skyline Financial Services Private Limited. The emailing of all Notices along with the Annual Report has been completed on Monday, September 4, 2023.

- In terms of Section 108 of the Act, read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members with the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the Resolution(s) mentioned in the AGM notice using electronic voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). In case, the member is unable to cast his/her vote on the facility of electronic voting platform provided by NSDL, then they shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Board has appointed Advitiva Vyas & Company, Practicing Company Secretaries, as scrutinizer for conducting the voting cess in a fair and transparent manner. The members may note the following:
- Members holding shares as on the cut-off date i.e., 22<sup>th</sup> September, 2023 may cast the vote electronically on business as set out in AGM Notice through such remote e-voting.
- Any person, who acquires shares and become a member of the Company after sending the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., 22" September, 2023, may obtain the login ID and password by sending an email to cs@louchwood in by mentioning his/her folio number/DP ID and client ID number. However, if you are already registered with National Securities Depository Limited (NSDL) fore-voting, then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
- The remote e-voting period begins on 09:00 A.M. (IST), on Tuesday, 26" September, 2023 and will end at 05:00 P.M. (IST) on Thursday, 28" September, 2023. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- d) Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or through e-voting during the AGM.
- The members who have already cast their vote by remote e-voting, prior to the AGM will be eligible to attend/participate in the AGM through the NSDL e-Voting system, but shall
- not be entitled to cast their vote again in the meeting. Members may note that the Notice of Annual General Meeting and the Annual Report fo FY 2022-2023 are also available on the Company's website <u>www.touchwood.in</u> as wel as on the website of National Stock Exchange of India Limited at <u>www.nseindia.com</u> also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) fo
- nembers and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of Wips://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll-free no.: 1800-222-990.
- Members may note that in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a Company after the 01" April, 2020 shall be taxable in the hands of members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source ("TDS") at the time of making the payment of dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The details about tax rates, documents
- required for availing the applicable tax rates are provided in the notice of the AGM. The results on resolutions shall be declared not later than 2 working days from the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at <u>www.touchwood.in</u> and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and the same shall be simultaneously communicated to National Stock Exchange of India Limited.
- BOOK CLOSURE: Pursuant to Section 91 and other applicable provisions of the Act and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfe Books of the Company shall remain closed from Saturday, 23" September, 2023 to Friday 29" September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 26th Annual General Meeting of the Company and to determine the eligibility of the members for the payment of the final dividend for the Financial Year 2022-2023.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting or through e-voting during the AGM

Place : New Delhi Date: 4<sup>th</sup> September, 2023 ORISSA ARTISANS AND WEAVERS LIMITED CIN : U172260R2010PLC012597, Tel. +91-671-2343200 Regd. Off : Shed No. 17/8, Industrial Estate Khapuria, Madhupatha, Cuttack-753010, Orisse

NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION

notice is hereby given that: The 13th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at Shed No. 17/B, Industrial Estate Khapura, Madhupatna, Cuttack-753010, Orissa on Wednesday, 27\* September, 2023 at 11:30 A.M to transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of ArM-

AGM; Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 have been sent to the members whose email IDs are registered with the Company. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on O4<sup>st</sup> September, 2023.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date of 20° September, 2023 may cast their vote electronically on the resolutions as set out in Ordinary Business in the Notice of ACM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are aformed their the security of the members are security of the members are aformed their security of the members are security of the members are aformed their security of the members are security of the members

The Ordinary Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means as well

- The remote e-voting shall commence on Sunday, September 24, 2023 at 9:00 A.M The remote e-voting shall end on Tuesday, September 26, 2023 at 05:00 P.M;
- The out-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM September 20, 2023;

September 20, 2023: Any person, who acquires shares of the Company and becomemember of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off data i.e. Soptember 20, 2023: may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@insdi.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for evoting there existing user ID and password can be used for cashing vote. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the adoresaid date and time for voting and nonce the vote on a resolution is cash by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM, and c) the members who have cash their vote by remote e-voting prior to the AGM may also shard the AGM but shall not be emitted to cash their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the tacility of remote e-voting as well as voting st the AGM through ballot paper. The notice of AGM is available on NSDL's website https://www.evoting nsdi.com in case of queries/privances relating to e-voting.

Place : Cuttack Date : September 04, 2023

The income or income is avarance on incode is velocite https://www.avoiling.ned.com in case of queries/grievances relating to e-voling, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voling user members in the Downloads Section of https://www.avoting.nsdi.com; or call on tol free no. 0224886 7000 and 022-2499 7000 or contact Mr. Avulhar Saxeen (Assistant Manager), National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4° Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbal-400013 at designated amail IDs; evoling@rad.co.h or anubhark@rad.co.in. The members may also contact Mr. Ninging Patra, Finance Executive at his email-id finance@orissaartisans.com or at Phone. No. +917008258291.

## For Orissa Artisans and Weavers Limited Sd Sti-Jagat Singh Bortwal Director DIN: 02696633 R/o. C 1 / 516, Second Floor, Chitrakoot Scheme, Valshali Nagar, Jaipur-302021

# FDC LIMITED

CIN: L24239MH1940PLC003176 Registered Office: B-8, MJ.D.C. Industrial Estate, Waluj - 431136, Dist. Aurangabad, Maharashtra, India. Corporate Office: C-3 Skyvistas, Near Versova Police Staforn, D.N. Nagar, Andheri (West), Mumbai - 400 053, Maharashtra India.

NOTICE OF THE 83RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING

INFORMATION AND INTIMATION OF BOOK CLOSURE Notice is hereby given that Eighty Third Annual General Meeting ("83rd AGM/AGM") of

Members of FDC Limited ('the Company') will be held on Wednesday, September, 27 2023 at 10.00 a.m. through Video-Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('DAVM'), to transact the businesses as set out in the notice convening the 83rd AGM of the Company in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder and the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), Circular No. SEBI/H0/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/H0/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular SEBI/H0/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").

In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, Annual Report for the Financial Year 2022-23 along with the Notice of 83rd AGM has been sent electronically to all the Members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agents, M/s. Link Intime India Private Limited /Depository Participants ("DPs"), on September 04, 2023.

The Annual Report including the Notice of 83rd AGM can be accessed and downloaded from the Company's website at https://www.fdcindia.com/annual-report. Additionally, it can be accessed on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com, being the agency appointed by the Company for providing e-voting and VC/OAVM facility for the AGM.

#### The Members whose e-mail addresses are not registered with the Company are requested to do so by following the process given below:

For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, name, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's email address investors@fdcindia.com or to RTA at mt.helpdesk@linkintime.co.in



#### NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting (AGM) of the Members of Chennai Super Kings Cricket Limited will be held on Wednesday, the 27th September 2023 at 9.30 A.M. [Indian Standard Time (IST)] through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 17/2020. 20/2020. 02/2021. 02/2022 and 10/2022 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020,13th January 2021, 5th May 2022 and 28th December 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') allowing the Companies to conduct the AGM through VC/OAVM, to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated 14th August, 2023. The Notice of 9th AGM along with the Explanatory Statement and the Annual Report 2023 have been sent by email on 04.09.2023 to those members who have registered their email addresses with the Company / Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants and no physical / hard copy of the same will be sent by the Company. Members may please note that the said documents are also available on Company's website at ings.com and on the website of Central Depository Services


**PTC India Limited** CIN: L40105DL1999PLC099328 Regd. Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066 Website: Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200. Fax: 011-41659144

E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com NOTICE OF 24" ANNUAL GENERAL MEETING AND **E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS** 

This is in continuation to our earlier communication given on August 29, 2023, whereby Members of PTC India Limited ("the Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] read with Genera Circular Nos.14/2020 (dated 8" April 2020), 17/2020 (13" April 2020), 20/2020 (dated 5" May 2020), and the latest being 10/2022 (28" December, 2022), respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No(s). SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (12" May, 2020), SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (15" January, 2021), SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 (13" May, 2022) and the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 (5" January, 2023) issued by the

**PTC India** 

#### Sd/-(Nitesh Kumar) **Company Secretary** M. No. F7496





Tel: 022 2673 9100. E-mail: Investors@Edcindia.com. Website: www.ldcindia.com

By order of Board of Directors For Touchwood Entertainment Limited Sd/ Ashima Arora Company Secretary & Compliance Officer

(CDSL) www.evotingindia.com, from where the said documents can be accessed / downloaded. The Link for accessing the Company's Annual Report 2023 is : https://www.chennaisuperkings.com/assets/InvestorsCorner/Final\_AR\_2023.pdf

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and the MCA Circulars, the Company is pleased to provide to members the facility to cast their vote on resolutions proposed to be considered at the Ninth Annual General Meeting, by electronic means and the items of business may be transacted through the facility of remote e-voting and e-voting during the AGM provided by CDSL. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 20.09.2023. The remote e-voting period commences on 23.09.2023 (9:00 A.M. (IST)) and ends on 26.09.2023 (5:00 P.M. (IST)). During this period, shareholders of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 20.09.2023, may cast their vote by Remote e-voting. The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have cast their vote by Remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM.

Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through Remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

Members who have not registered their e-mail IDs with the Company / RTA / Depository Participants (DPs) can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting during the AGM in virtual mode as per the procedures detailed in Note No. 17 of the Notice of the 9th AGM.

The detailed procedures for Remote e-voting (prior to AGM), participating in the meeting through VC/OAVM and e-voting during AGM are explained in Note No.17 of the Notice of 9th AGM and is also available on the website of the Company at www.chennaisuperkings.com.

For any information or any query on Remote e-voting and e-voting during AGM, Members may refer to the instructions mentioned under Note No.17 of the Notice of the 9th AGM sent by email or contact Mr.K.Balasubramanian, General Manager, Integrated Registry Management Services Private Limited (RTA), Tel No.: 044-28140801 to 28140803; email: corpserv@integratedindia.in or contact Mr.Rakesh Dalvi, Toll free No : 1800-22-55-33, email helpdesk.evoting@cdslindia.com or Mr.S.Sriram, Tel.: +91 9941907071, email : investor@chennaisuperkings.com by mentioning their DP and Client ID / Folio No.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after forwarding the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 20.09.2023, may obtain the login ID and password by sending an email to investor@chennaisuperkings.com or corpserv@integratedindia.in or helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their DP ID and Client ID. However, if you are already registered for e-voting, then you can use your existing user ID and password to login and cast your vote. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password, please refer to the instructions for Remote e-voting and e-voting during the AGM provided in Note No.17 of the Notice of AGM. Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of CDSL.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to attend the AGM through VC / OAVM and avail the facility of Remote e-voting or e-voting during the AGM.

Smt.P.R.Sudha, Practicing Company Secretary (C.P.No.4468), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process of Remote e-voting and e-voting during AGM in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall submit her report to the Chairman not later than three days from the conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorized by him in writing will declare the result forthwith. The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the websites of the Company and CDSL forthwith.

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21.09.2023 to 27.09.2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members may please note that as the AGM is being conducted through Virtual Mode i.e. VC/OAVM, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the Ninth Annual General Meeting. The attendance of Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

|                   | For Chennai Super Kings Cricket Limited |
|-------------------|---|
| Place : Chennai   | K.S.Viswanathan                         |
| Date : 04.09.2023 | Wholetime Director                      |

Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular/s"), the 24" Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Wednesday September 27, 2023 at 12:30 P.M. will be convened through Video Conferencing ("VC") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice of 24" AGM.

The process of sending the Notice of 24" AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2023 along with login details for joining the AGM through VC facility including e-voting has been completed by 4" September, 2023 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars, as well as the same are also available on Company's website at https://www.ptcindia.com/annual-report/, Stock Exchanges' websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdi.com. The hard/electronic copy of annual report will also be sent to those shareholders who request for the same by writing us at cs@ptcindia.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations. Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) on all resolutions set forth in the Notice of the 24° AGM. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through VC. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023 ("Cut-off date") may cast their votes electronically on the resolutions as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of NSDL.

All the members are informed that:

- The businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means:
- The remote e-voting shall commence on Sunday, 24" September, 2023 at 9.00 a.m. (IST);
- The remote e-voting shall end on Tuesday 26" September, 2023 at 5:00 p.m. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 20" September, 2023 and a person who is not a Member as on the out-off date may treat this Notice for information purposes only;
- Person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM or write an email to us at cs@ptcincla.com. If such a person is already registered with NSDL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote.
- Members may note that; a) the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
- Shri Ashish Kapoor, Practicing Company Secretary (CP No. 7504), has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process at 24" AGM in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules
- The Scrutinizer will submit its final report after the conclusion of voting at the 24" Annual General Meeting but not later than 2 (two) working days from the closure of AGM; and the Chairman of the meeting or any other person authorized by him in that behalf shall announce the result of voting on the resolutions taken up at the 24" Annual General Meeting simultaneously upon submission of final report by the Scrutinizer. The results along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website at https://www.ptcindia.com/ and simultaneously be communicated to the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange of India (NSE) and NSDL and be displayed at the registered office of the Company.
- In case of any queries related to AGM/ E-voting etc., the Member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on. 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at e-voting@nsdl.co.in.
- 10. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from Thursday, the September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for final dividend on Equity Shares for the financial year 2022-23, if declared at the meeting. By order of the Board

| and to see the second     | Sd/               |
|---------------------------|-------------------|
| Date: 5th September, 2023 | (Rajiv Maheshwari |
| Place: New Delhi          | Company Secretary |

For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s.

Members may attend and participate in the AGM only through the VC/OAVM facility, as indicated in the notice of the meeting. Please note that there will be no provision for ending and participating in person at the 83rd AGM of the Company.

#### Instructions for Remote e-voting and e-voting during the AGM:

Pursuant to provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of Listing Regulations. the Company is pleased to provide facility to cast their vote electronically ("remote evoting") on the businesses as set forth in the Notice of the AGM. The facility for e-voting will also be provided during the AGM. Accordingly, members who have not cast their vote by remote e-voting will be able to vote during the AGM. The Company has engaged the services of NSDL, who will provide the e-voting facility of casting votes to member using a remote e-voting system (e-voting from a place other than the venue of the AGM) "remote e-voting") as well as e-voting during the AGM ("e-voting at the AGM")

The Members, whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners maintained by the Depositories as of Wednesday, September 20, 2023 ("Cut-off date"), are entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as e-voting system during the AGM. The remote e-voting period will commence on Sunday, September 24, 2023 at 9.00 a.m., and will end on Tuesday, September 26, 2023 at 5.00 p.m. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. on Wednesday, September 20, 2023 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialization form, physical form and members who have not registered their email addresses is provided in the notice of the AGM. Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again on such resolution(s) for which the Member has already casted the vote through remote e-voting.

A person who has acquired the shares and has become a member of the Company after the dispatch of the Notice of the 83rd AGM and prior to the Cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023 can obtain/generate the user ld and password as per the instructions provided in the notice of AGM.

In case you have any queries or issues regarding attending AGM, remote e-voting or evoting System, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, under the help section or write an email to Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President, (NSDL) at evoting@nsdl.co.in or contact at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President, at National Securities Depo: Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, Maharashtra, India or send an email to evoting@nsdl.co.in or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

#### **Book Closure:**

Date: 04t Place: Mi

For PTC India Limited

Pursuant to provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 21, 2023, to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the 83rd AGM of the Company.

#### Important information for the Shareholders Updation of KYC Details

The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN), KYC details and nomination by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the said details to their depository participants with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form can submit these details to Link Intime India Pvt. Ltd. SEBI vide its circular dated March 16, 2023 has mandated the RTA's to freeze the folios not having these details after October 01, 2023.

#### For FDC Limited 24/-

| Varsharani Katre<br>Company Secretary & Compliance Officer |
|--|
|  |

| TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED<br>CIN: L92199DL1997PLC088865<br>Regd. Off.: Sec-B, PKT-1, Space No-301 and 302 LSC-7, Community Centre,<br>Vasant Kurrj, Sector B, New Delhi, South West Delhi-119070, India.  |  | खा, जसपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड  | RELIANCE<br>Asset Reconstruction<br>Asset Reconstruction<br>स्लायंस सेंदर : 11 वां तल, नार्थ साइंड, आर टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,<br>गोरेगांव (ईस्ट), मुम्बई–400063   |
|---|--|---|---|
| Contact Not: +91 9810108253<br>Email: cst@dotAwcod.in Website: www.touchmood.in<br>NOTICE<br>1. Notice is hereby given that the 26" Annual General Meeting ('AGM') of Touchwood<br>Entertainment Limited (the "Company") is scheduled to be held on Friday, 29" September,<br>2023 at 4 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means<br>('OAVM') in compliance with the relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs<br>and Securities and Exchange Board of India ('Circulars') and in compliance with the<br>provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"). Secretarial Standard-2 and the SEBI<br>(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing<br>Regulations'), without the physical presence of the members to transact the Ordinary and<br>Special Business as setout in the AGM Notice.<br>In compliance with the above circulars, electronic copies of the notice of the AGM along with<br>Annual Report for the financial year 2022-2023 ('Annual Report') has been sent through<br>e-mail to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company or<br>with their respective Depository Participants ('Depository') and Transfer Agent, Skyline<br>Financial Services Private Limited. The emailing of all Notices along with the Annual Report<br>has been completed on Monday, September 4, 2023.<br>2. In terms of Section 108 of the Act, read with the Rule 20 of the Companies (Management and<br>Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the company<br>is backed to mondate in respective between the monde as with the Armola view destronicable.   | अधोहस्ताक्षरी जो कि सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रीकन्सटूक्स<br>इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (2002 का 54) के अन्तर्गत बेंक औ<br>13(12) तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल 200<br>करते हुए निम्नलिखित सम्पत्तियों का विभिन्न तिथियों में दि<br>रूणों के संदर्भ में मांगपत्र भेजे गये तथा ऋण वापसी हेतु 60<br>मांगी गई धनराशि जमा न हो सकने पर एतद्दारा बकाएवा<br>13(4) व रूल 8 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते<br>लिया गया है। अतः बकाएवारौं/जमानतदारों को विधेश रू<br>निम्नलिखित परिसम्पत्तियों का किसी भी प्रकार का संययक<br>बडौदा की सम्बन्धित शाखा को देय राशि तथा उस पर देन<br>बकाएदार/जमानतियों का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्ति/यों के<br>उप–धारा(8) का प्रावधान करने के लिए आमंत्रित किया गया<br>श्र.<br>का जाम व पता<br>अद्यल प  | II जोटिस<br>रान ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एवम् इन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी<br>रॉफ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी है, द्वारा उपरोक्त एक्ट की धारा<br>२2 के नियम 3 में निहिल प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग<br>जेनका उल्लेख निम्नवत् है, को बकाएदारों/जमानतदारों को बकाए<br>दिनों का अधिकतम समय दिया गया। बकाएदारों/जमानतदारों को बकाए<br>दिनों का अधिकतम समय दिया गया। बकाएदारों/जमानतदारों द्वारा<br>रों/ जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि उक्त एक्ट की धारा<br>हुए निम्नलिखित सम्पत्तियों पर अधिकृत अधिकारियों द्वारा कब्जा ले<br>प में एवम् जनसाधारण को एतद्दारा सावधान किया जाता है कि<br>हार न करें। इस सम्बन्ध में किया गया कोई भी संव्यवहार बैंक ऑफ<br>य ब्याज एवं अन्य खर्ष सहित के प्रभाव के शर्तों के अनुसार होगा।<br>एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–13 की<br>है।           रिसम्पत्तियों का विवरण         बकाया धनराशि<br>ही सम्पत्ति के सभी भाग व हिल्से जो कि         ₹ 3,48,45,362.15   | मिळवर सटका के परिताय (प्रदर्भ), जुम्बरूम00000         प्रत्याभूत परिसंपतियों विक्री हितु स्पूचना [ देखें नियम 6(2) के साथ पठित नियम 8(6) ]         विवीय परिसंपतियों के प्रतिमुद्धिकरण एवं पुनर्निर्मान और प्रतिमुद्धि दिव प्रवर्ग-अधिमियम, 2002 के परंतुक के साथ पठित प्रतिमुद्धि दिव (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत अवल परिसंपतियों के विश्व हितु ईनीलामी विद्ये मुंदम         एतर द्वारा अवल परिसंपतियों के विश्व हेतु ईनीलामी विद्ये मुंदम         एतर द्वारा अवल परिसंपतियों के विश्व हेतु ईनीलामी विद्ये मुंदम         प्रतर हाउ सिंग के व्यव क्यारिया के विश्व हेतु ईनीलामी विद्ये मुंदम         प्रतर हाउ सिंग के व्यव एवं एकड़ने क्योरियन विभिद्ध के अधिकरतांकन समझेता विभाक हुए 30.3.2019 के तहत आरएआरसी 059 (आरएएसबर्डएकसीएल एषएल) ट्रस्ट ये दुस्टी सिंग वेद्य स्था परित प्रतिम विवय पर्या के अधि परिसंपत्रिया के प्रतिम विद्य के अधीकरता कि कियेद (आरएआरसी) के प्रत्य में अंतर्मितिय प्रतिमुदियों के साथ अपने अधिकार, शीर्षक के साथ अपने के साथ अपने अधिकार, शीर्षक के साथ अपने क्रियाय स्था सिंग हित्य कि सुदी यर कारदियो परिसंपत्रियो / कर्मा के प्रति क्रियेट (आरएआरसी) के प्रत्य में अंतर्मितिय प्रत्य प्रत्य सिंग क्या के साथ अपने अधिकार, शीर्षक को स्वाय के आध अपने क्रियो के क्या के साथ अपने के साथ अपने अधिकार, शीर्षक को स्था के साथ अपने के क्या के साथ अपने क्या की विद्य के साथ अपने के विवय के क्या के साथ अपने के साथ अपने संवियर के क्या के साथ अपने के क्या के साथ के प्रते कि स्वाय के दिया के क्या के काथ अपने संपत्ति विद्य कि के के क्या के विधिद्ध के अधीकरताका सिंग प्रतिम दिवर के व्या के त्या के क्या के साथ क्या के व्या के सुंद किंग देव्यक को कि की क्या त्या सं संद सिंग देव्यक विद्र सिंग के क्या को वे की के वार के साथ अपने के क्या के क्या के साथ प्रतं कि क्या के दुस्ट के उत्तर कि प्रता के व्या के दुस्ट कि उत्तर दि के व्या के दुने के के के क्या के क्या के हैं प्रती के प्रता के प्रता है दुस्ट के वत्लर विद्र प्रत के व्या के वा के ही था विद्र सिंग मे क्  |
| <ul> <li>is pleased to provide its members with the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the Resolution(s) memfored in the AGM notice using electronic voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). In case, the member is unable to cast his/her vote on the facility of electronic voting platform provided by NSDL, then they shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Board has appointed Advitive Vyas &amp; Company, Practicing Company Secretaries, as scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. The members may note the following:</li> <li>a) Members holding shares as on the cut-off date i.e., 22" September, 2023 may cast their vote electronically on business as set out in AGM. Notice through such remote e-voting the voting the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., 22" September, 2023, may obtain the login ID and password by sending an email to <u>cs@touchwood.in</u> by mentioning his/her folio.number/DP ID and clent ID number. However, if you are a leadedy registered with National Securities Depository Limited (NSDL) for e-voting, then you can use your existing User ID and password for casting your vote.</li> <li>c) The remote e-voting period begins on 09:00 A.M. (IST), on Tuesday, 26" September, 2023. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting there and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting there and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting there and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting there and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting there and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.</li> </ul>   | (कर्जदार), प्रोपराईटर भूपेन्द्र<br>सिंह पुत्र किशन सिंह, नि0 ग्राम<br>भागचुढ़ी, पोस्ट नौसर, उधमसिंह<br>नगर, उत्तराखण्ड-262308<br>2. श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह<br>(ग्रोपराईटर मैसर्स किशन एग्री<br>फार्म्स), नि0 ग्राम भागचुढ़ी,पोस्ट<br>नौसर, उधमसिंह नगर,<br>उत्तराखण्ड-262308<br>3. किशन सिंह पुत्र त्रिका सिंह<br>(जमानती), नि0 झनकट नानकमत्ता, उधमसिंह नगर, उ  | शी सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि<br>नं. के एवं एल. (कैटेगरी 2 फ्लैट), सरिता<br>स्थित है। सम्पत्ति श्री भूपेन्द्र सिंह के नाम पर<br>ब में आम रास्ता, पश्चिम में खुला स्थान एवं<br>, दक्षिण में सीढ़ियां एवं फ्लैट नं. के-12<br>मान का दृष्टिवंधक।   | भवा, सबेटर 27, गोएवा, खेवट बन, 120 130 1, इसके अलावा: पंचार पांच स. जान 1, फूलन, पंचाट स. 112, खसरी स. 406,<br>407, 410, वर्रवता, संचटर - 49, जिला गीतम बुद्ध नगर, तरप प्रदेश<br>संघषि: पर्लट सं. जी–1, मूतल, प्लॉट सं. 112 घर निर्मित, खाता सं. 129 और खसरा सं.406 ग्राम वारीला, सेक्टर-49,<br>तहसील दावरी, जिला गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश घर स्थित का संपूर्ण वसवीधीण भाग। (माफकल्यमग 620 वर्ग फुट राजनि 5, 620<br>वर्षमींटर)।<br>मांग सूचना : रु. 14,73,580.08/- (रुपये चीदाह लाख तिहत्तर हजार पांच सी अरस्सी और आठ पैसा मात्र) दिनांक<br>14.09.2017 तक साथ ही मविष्य का ब्याज और लागती।<br>संपत्ति का निरीक्षण : दिनांक 16,10.2023 समय : पूर्वाक्ष 11.00 से अपॉक्ष 02.00 बजे<br>बोली जमा करने की अंतिम दिनांक : दिनांक 18.10.2023 समय : पूर्वाक्ष 11.00 से अपॉक्ष 02.00 बजे<br>बोली जमा करने की अंतिम दिनांक : दिनांक 18.10.2023 समय : पूर्वाक्ष 11.00 खे से खा करा का स्थित क 5 मिनट विस्तार के साथ<br>ई–नीलामी कि निवम और शर्ती: 1.संपत्ति को आरधित मूल्य से नीचे नहीं बेवा जाएगा और विद्या भूद ज्वाता के रूप में आरएआरसी छार पुष्टि के<br>जाएश स्थान से 1 इंडिया प्राइवेट लिपिटेड, प्लॉट सं. 69 मुज्यां वरियाण पित्र को का 122003 के माध्यम से ई–नीलामी जीनलाइन आयोजित की जाएगी।<br>3.ई–नीलामी में था देने से पहले, ट्रफ्यूक बोलीदाताओं को एक येध ई–मेल आईढी बना वार और योर्टल नाम www.bankeauctions.com पर अपना<br>नाम पंजीकृत करना वाडिए और मेरसंस सी 1 इंडिया प्राइवेट लिपिटेड सं अपनी जययोककरां आईढी और पासवर्ड प्राप्तवर्ड 1.संचर्म सा वा नी त्यांतित की जाएगी<br>3.ई–नीलामी में माथ त्वेने से पहले, ट्रफ्यूक बोलीदाताओं को एक येध ई–मेल आईढी या पासवर्ड प्राप्तवर्ड 1.संचर्म सी 1<br>इंडिया प्राइवेट क्षिनिटेड, (संघर्क व्यक्ति : भी दिनोद संडान से मोहल में मोडा दिर 2003 के साध्य में दर्ग नीता वोलीदाता में सा रज सर को ही 1<br>इंडिया प्राइवेट क्षिनिटेड, (संघर देवे सं : 14 दिना संडान से मोवान संडान में वाल साता संडय 10 4745, 25, 26) पर ई–नीलामी ऑनलाइन प्रविधण का लाग र जा सफते हैं 1<br>5.अप्तींग वाना शिक्षी आलटीजीसर, एनईटिय सॉईन सं. 7291981124, 25, 26) पर ई–नीलामी ऑनलाइन प्रविधण का लाग ता सा करी ही   |
| <ul> <li>d) Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial ownermaintained by the depository as on cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or through e-voting during the AGM.</li> <li>e) The members who have already cast their vote by remote e-voting, prior to the AGM will be eligible to attend' participate in the AGM through the NSDL e-Voting system, but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.</li> <li>f) Members may note that the Notice of Annual General Meeting and the Annual Report for FY 2022-2023 are also available on the Company's website <u>www.touchwood.in</u> as well as on the website of NSDL at <u>www.evoting.msdl.com</u>.</li> <li>g) In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or ontact.NSDL at the following toil-free no.: 1800-222-909.</li> <li>h) Members may note that in terms of the provisions of the Income Tax Act. 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a Company shall therefore be required to submit the documents in accordance with the pownisons of the Income Tax Act. 1961, as a supplicable, members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act. 1961, The details about tax rates, documents required for availing the applicable tax rates are provided in the notice of the AGM.</li> <li>(i) The results on resolutions shall be declared not later than 2 working days from the conclusion of the AGM. The results declared not later than 2 working days from the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scruinizer's Report will be mede available on the website of the Company alwww.touchwood.in and on the website of NSDL at www.evevoing.al.com and the same shall be simultaneously communicated to NSDL at suck exchange of India Limited.</li> </ul> | पूनावाद<br>पंतीमृत्त कार्यातयः 201<br>पंतीमृत्त कार्यातयः 201<br>प्रतिमुतिकरण एवं वितीय संयत्तियं के पुन<br>(वित्ते यहां याद में<br>के अधीन प्रत्याभूत<br>एतवृद्धारा आमतौर पर सर्वसाधारण तथा विहेष तौर पर कर्जवारो(सह-<br>मेणमा फिनकॉर्म तिमिटेड, अब यूनावाला फिनकॉर्म तिमिटेड के नाम उ<br>संयंवित अधिकृत अजिकारी द्वारा अधीनियम की आरा 13(4)/14 के अड<br>तथा लगता इत्यादि की वसूली के लिए नीचे बलिसिया नियमों के अ  | त, जिला उधमसिंह नगर       प्राधिकृत अधिकारी         ला फिनकॉर्प लिमिटेड       ई-नीलामी         एवं 202, दूसरी मंजिल, एपी81, कोरेगॉव पाके एनेक्स,       ई-नीलामी         पुंढवा, यूणे-411 036, महाराष्ट्र       बिंगिक, एपी81, कोरेगॉव पाके एनेक्स,         पुंढवा, यूणे-411 036, महाराष्ट्र       बिंगिक,         जाला फिलकॉर्च सिनिटेड, एससीआं 75, दूसरी मंजिल,       ब्रिंगि सिनिटेड, एससीआं 75, दूसरी मंजिल,         प्रेलवा 9, मोहाली-160062       प्रेणिन किंत प्रवर्तन अधिमियम, 2002         गंडवारी/गारंटीवाताओं को सूचना दी जाती है कि निगमन प्रमाणपत्र के माफेंत         से बात, के पास गिरवी रखी गई गंध उल्लियित सम्पत्ति, जिस पर कंपनी के         तेन कबा कर लिया गया है, कंपनी की बकाया राशि के साथ लागू व्याज, शुल्कों         लुसार ई-गोलानी के जरिए जिसकी बिक्री की जाएगे।         के नियमन के एवं 9 के अधैन निम्नतिसित सम्पत्ति की 'जंसे है जहा है, वहां जो   | शांताकूल वेस्ट शाखा मुंबई, 400054, लाभाधी का नाम : आरएआरसी 059 (आरएचडीएफसीएल एचएल) टूस्ट आईएफएससी कोड : IDIB0005010 में<br>जमा किया जाएगा। कृप्या ध्यान दें कि चेक/ किमांड ड्वाप ट ईएमडी के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6.आरधित मूल्य के नीचे और/या ईएमडी रात्री के बिना की<br>बीलियां त्यीकार नहीं की जाएंगी बोलीयाता अपनी बोलीशी में र. 5,000 प्रति लोट गुफक के रूप ने आगे सुधार कर सकते हैं। 7.सफल बोलीयाता घोषणा के<br>कुरंत बाब बोली राशि (बिग्री मुल्य का 75% शेष जमा करेगा, जैसा कि टीडीएस के अधीन लागू हो रूपने को साथा से 15 दिनों के भीतर सफल<br>बोलीयाता बोली राशि (बिग्री मुल्य का 75% शेष जमा करेगा, जैसा कि टीडीएस के अधीन लागू हो रकता है। 8.यदि सफल बोलीयाता ऊपर बताए रफ बिज्री मूल्य<br>को जमा करने में विफल सहता है। तो ईएमडी सहित सभी जमाओं को बिना किसी सुधना के जबत कर लिया जाएगा। 9.ई–नीलानी बिग्री वी की कार्ययाही बंद होने के<br>बाव अरफल्ट बोलीवाताओं की ईएमडी सहित सभी जमाओं की बीना किसी सुधना के जबत कर लिया जाएगा। 9.ई–नीलानी बिग्री ये का कार्यवाही बंद होने के<br>बाव अरफल्ट बोलीवाताओं की ईएमडी सहित सभी जमाओं की बीना किसी सुधना के जबत कर सित्रा कि कार्य किसरी होगा। 11.31 घं हे हर ता श रि त<br>प्राधिकृत अधिकारी की मिन्य मा बीती को स्वीकित सादिक सिंग पायर करने या बिग्री को सिल्स / एक जला की होगा। 11.31 घं हे हर ता श रि त<br>प्राधिकृत अधिकारी की किसी मी बोली को स्वीकार कारि किसी मैचुटि, सलत बयान या चुक जादि के सिद्ध किसरी होगा। 11.31 घं हर ता श रि त<br>प्राधिकृत अधिकारी जी नियम मा बीता को स्वीधित करने का पूर्ण आधिकार और विवेकाधिकार है। 12.जोलीयाताओं को संघार कर खुत्स कु स्वा के संघा<br>बतार किसरी भी नियम और क्षतों के संक्षोधित करने का पूर्ण आधी की बीच की संपरित हर करने या बिना वित्री पुर सुस्ता या किसि मुंत स्वा म<br>बतार किसरी भी नियम साखरी हो पि साधा जॉनलाइन बोली जमा करने के बाद नही सुचा जाएगा। 13.उपलब्त अभिलेखों के अनुसार, अधोह स्वा स<br>बतार किसरी की अपर संसर संपरियों पर फिली भी भर के संपर की वीकि कि पाया का बिज पार पर<br>अं किसी अन्य मामले जादि के सारे में प्रेत की भा करने के बाद नही मुचा जाएगा। 13.उपलब्ता बोरिए सुद सुमा ख़र<br>वोद एक एक साधी के के सुपर संपरियों पर किती भी मरके संपरिक सिय नही ने हो कि अं उप स्वा अभि के खुल्ह संपरिक<br>कोई भी एरियर, बक्त के सुपर संपरित कित |
| 3. BOOK CLOSURE: Pursuant to Section 91 and other applicable provisions of the Act and<br>Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer<br>Books of the Company shall remain closed from Saturday, 23 <sup>-5</sup> September, 2023 to Friday,<br>29 <sup>o</sup> September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 26th Annual General<br>Meeting of the Company and to determine the eligibility of the members for the payment of<br>the final dividend for the Financial Year 2022-2023.<br>Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM<br>and In particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through<br>Remote e-voting or through e-voting during the AGM.<br>By order of Board of Directors<br>For Touchwood Entertainment Limited<br>Sd/-<br>Place : New Delhi<br>Date: 4 <sup>o</sup> September, 2023 Company Secretary & Compliance Officer  | <ul> <li>हे तथा बिना किसी वायित्य के आधार पर' बिकी की जाएगी:</li> <li>1. कर्जवारी/साह-कर्जवारी/<br/>गारंदीदालाओं के नाम</li> <li>2. मांग सूचना की तारीख</li> <li>3. कुल बकाया + उससे बाजज</li> <li>जगवीश</li> <li>जगवीश एण्ड सन्स<br/>रोशनी देवी</li> <li>3. कुल बकाया = उससे बाजज</li> <li>जगवीश एण्ड सन्स<br/>रोशनी देवी</li> <li>3. कुल बकाया: दिनांक 19.11.2021</li> <li>के मुगतेय ठ. 33,65,402/- (रुपये<br/>तेतीस लाख पैंसल हजार चार सी दो<br/>मान्द्र) साथ में वस्थानी की लाशिख: वि.11.2021</li> </ul>   | 2         20.09.2023 (पूर्वाहम 11.00 बर्च<br>ह से अपराहन 2.00 बर्क तक)         (लाख मे) :<br>र. 38,16,000/-<br>र. 2. इंएमडी (बवाना राशि जमा) जमा<br>ह करने की अतिम ताशिख<br>ह जार मात्र)         र. 38,16,000/-<br>र. 38,16,000/-<br>र. 38,16,000/-<br>र. 39,16,000/-<br>र. 39,16,000/-<br>39,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17, | जहां है, जो है जैसा है, और वहां जो भी है आधार'' पर उसे हटाने /स्थानांतरित करने /निपटान करने के लिए बाध्य होगी। कंपनी इस संबंध में किसी भी<br>एब द्वारा उठाएगए किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।<br>स्थान : दिल्ली,<br>विनांक : 05.09,2023<br>रिलायंस एसेट रिकस्टूबरान कम्पनी लिमिटेड<br>नोंट : सरफैसी अधिनियम,2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी करने के बाद यदि कोई राशि जारी की जाती है,<br>तो उसे साकार करने /यसूली के समय देय बकाया राशि का पता लगाने के लिए गिना जाएगा।  |
| (भारत भा-3123-258199, हिंग् देवसाइट अफ. इलाउट्टा 2017) (आ का)<br>(भारत भा-3123-258199, हिंग दाये हुलाउट्टा अफ. इलाउट्टा 2017)<br><b>3 1वीं वार्थिक साधारण सभा, रिकॉर्ड तिथि तया ई-वोटिंग की सूचना</b><br>एतद्वारा सुचित किया जाता है कि जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रवस मिलिपिटंड की 3 1वीं वार्थिक साधारण सभा<br>(''एनीएम') गुरूबार, 28 सितम्बर 2023 को प्रात: 11:00 खर्ब (भारतीय समयानुसार) बीडियों<br>कॉफ्रोसिय'' वीसी'') अक्षया अन्य ऑडियों विनुअल माध्यमां('' अपेएवीएम') की सुविया के माध्यम<br>सं, कम्पनी अधिनियम, 2015 को साथ कॉचिंट कार्य मंत्रालय एवं संधी द्वारा जारी जववुक्त सकर्वुत्तरों<br>('' उपयुक्त सकर्युत्तरों ') के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, एर्जीएम के नोटिस में में<br>गई कॉप्वीक्वी की पुरा करने देतु निर्धारित क्रम में है । सदरस, एजीएम के नोटिस में क्रल्तिया प्रक्रिया का<br>प्रावश्वकस्ताएँ) विनियम, 2015 के साथ कॉचिंग्ट कार्य मंत्रा संबी ( सुचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण<br>अवश्वककताएँ) विनियम, 2015 के साथ कॉचिंग्ट कार्य मंत्रालय एवं संधी द्वारा जारी जववुक्त सकर्युत्तरों<br>('' उपयुक्त सकर्युत्तरों ') के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, एर्जीएम के मोटिस में प्रे<br>गई कॉपवेच्यीक्रि में पुरा करने देतु निर्धारित सभा यहे 30 सिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम<br>के माध्यम से एजीएम के प्रार्भ होने को निर्धारित समय से 30 सिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम<br>के माध्यम से एजीएम में प्रार्भ को स्वत् है ।<br>उपयुक्त सकर्युत्तरों के अनुसार, एर्जीएम का चोटिस एवं विनीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रियॉर्ट, 04<br>सिताग्वर 2023 को ईमेल द्वारा वन सदस्यों को भंजी जा खुकी है जिनक ईमेल पने कप्पनी/रजित्दार और<br>दूसिफर एज्टेर ('' आरटीए'')/रेडपॉजिटरी पार्टिसिपेटस / डिपॉजिटरी क्र कप्पती रजित्दार और<br>दूसिफर एज्टेर (''सीडीएसस'/ 'CDSL) की लेखसाइट www.evotingiadia.com और स्वत्त है ।<br>को वेकसाइट waw.eseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलच्या है ।  | इच्छुक बोलीवालाओं को शाखा तथा नीलामी के लिए रखी जाने वाल<br>जानकारी प्राप्त करने की साखा तथा नीलामी के लिए रखी जाने वाल<br>हासिल करनी डोगी एवं सभी मामले के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर<br>विद्युल के वकाया तथा अन्य कोई भी वकाया, वादि कोई हो, की जान<br>करना डोगा। बोलीवाताओ/प्रत्याहित केताओं से वोलियां ज्यम करने<br>प्रासांगिक विषयों के संबंध में रखवे को संतुष्ट होने का अनुरोध किया<br>ई-नीलामी के नियम एवं शर्वे :<br>1. वेबसाइट https://augeo.samil.in के जरिए ऊपश वल्तिविद<br>ई-गीलामी/बोली हारा नीलामी/विठी सम्पन्न की जाएगी। इच्छुक<br>अप्रिम प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए ऊपिवार्य है, एवं इ<br>नोएवा 201301, नं. +91 7428993244/ +91 74286951<br>होगा। कृपया च्यान दे कि प्रत्याशित बोलीवालागण सिर्फ उनसे ही<br>"पूनावाला किनकोर्य लिमिटेड" के खाते में, बंक-आईसीआइस्तेआइ<br>आईसीआईसी0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी से जे लेकाता<br>जो विनांक 15.09.2023 को अधवा उससे पहले किसी भी राष् | से अपराहन 4,00 बजे तक) हणार छह सी मात्र)<br>है सम्पत्ति का निरीक्षण करने तथा शुल्क, ऋणमार इत्यादि के संबंध में आवश्यक<br>रनी होगी एवं अतिरिक्त शुल्कों, ऋणमार तथा तृतीय पक्ष हित के बारे में जानकारी<br>लेन होगा। सम्पत्ति के संबंध में सभी संवैधानिक बकाया राशि यथा सम्पत्ति करों,<br>कारी प्राप्त करनी होगी एवं सफल बोलीदाता/प्रत्यात्रित केता को उसका जुगतान<br>रे से पहले उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों से अपनी हित्त में संबंधित ऊपरोक्त तथा सभी   | पीटीसी इंडिया लिमिटेड<br>सीआइंएन: L40105DL1999PLC099328<br>पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल एनबीसीसी टॉवर, 15 भीकाजी कामा प्लेस,<br>नई दिल्ली- 110 066<br>वेबसाइट: दूरभाष: 011-41659500, 41595100, 46484200, फैक्स: 011-41659144<br>हे-मेल: info@ptcindia.com वेबसाइट: www.ptcindia.com<br>24वीं वार्षिक आम बैटक की सूचना और सदस्यों को ई-वोटिंग की जानकरी<br>वह 29 अगस्त, 2023 को दिए गए हमारे पहले संनार के क्रम में है, जिसके तहत वनाए गए नियमें और कंभिंटे कार्य मंत्रालब द्वारा नयी सामान्य परिव<br>संख्या 14/2020 (दिनांक 8 अप्रैल 2020), 17/2020 (13 अप्रैल 2020), 20/2020 (दिनांक 5 मर्च 2020) और नजीनकम 10/2022 (दिनांक 28<br>दिसम्बर, 2022) ('एससीए परिव') के साव पठित सेनी प्रिचक्स वॉक्ट प्रथा प्रथा की स्वीनकम')<br>के लागू प्रावधानों एवं मास्तीव प्रतिमय ने के सिंग मंत्र सेना से इंटिंग प्रियम 2015 ('सेनी (एलओडीआर) विनियम')<br>के लागू प्रावधानों एवं मारतीव प्रतिमूति और विनियम वोर्ट सार्य मंत्र त्वर मंत्र 28<br>दिसम्बर, 2020), परिवर में तेहा दिनिम्म योर्ट द्वार्य नयी परिपत्र मं SEBI/H0/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (दिनांक 12<br>मर्च, 2020), परिपत्र मं, SEBI/H0/CFD/CMD2/CIR/P/2021//11 (दिनांक 15 जनवरी, 2021), परिपत्र मं  |

कट ऑफ लिथि 21 सिलम्बर, 2023 को प्रोयर धारित करने वाले सदस्य, 31यॉ एजीएम की सचना मे

माध्यम में अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वांटिंग और एजीएम में जामिल डोने की विम्तत प्रक्रिया एव निर्देश एजीएम के नोटिस में निहित है। इस संबंध में, सदस्यों को सुचित किया जाता कि

- ( 1 ) दरस्थ ई-कोटिंग की अवधि सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 ( प्रात: 9 वजे ) से प्रारम्भ होकर . बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 ( सार्च 05:00 वजे ) को समाप्त होगी। उक्त ई-वोटिंग कथित तिथि एवं समय के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी।
- दूरस्थ ई-वांटिंग को सीडीएसल द्वारा बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को साथ 05:00 वजे के बाद ष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- ( 3 ) किसी सदस्य के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके मतदान करना अनिवार्य नहीं है सदस्यों के पास एजीएम में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का भी विकल्प है सदस्य मतदान के लिए केवल एक ही माध्यम का विकल्प चुन सकते है । जिन सदस्यों ने बैठक से पहले दरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वह भी बैठक में शामिल हो सकते है, लेकिन फिर से अपना बोट डालने के हकदार नहीं होगे।
- वड व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखें गए लाभकारी स्वामियों के (4) रजिस्टर में कट-ऑफ लिथि 21 सितम्बर, 2023 के दिन दर्ज है, वह ही केवल एजीएम में ई-चेटिंग या दूरस्थ ई-वेटिंग सुविधा प्राण करने के हकदार होंगे। वह व्यक्ति जो उक्त कट-ऑफ तिथि के दिन सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को एवं एजीएम के नोटिस को केवल जानकारी हेनू ही उपयोग मे
- सदस्य, जिनके पास भौतिक रूप में झोवर हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने इंमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे रिघोट ई-कोटिंग के याध्यम से या एजीएम के दौरान ई-कोटिंग सिस्टम के याध्यम स एजीएम के नोटिस में उल्लेखित प्रक्रियाओं / निर्देशों का पालन करके अपना घोट डाल सकते हैं ।
- जिन संदरम्यों ने अपनी ईमेल पंजीकृत नहीं की है या जिन्होंने एजीएम का नोटिस एवं वार्थिक रिपोर्ट (6) तो पेपण को बार पोयरों का अधिगरण किया है और जो कर-ऑफ निशि यानी गरुवार 21 सितम्बर 2023 को शंयर धारण करना जारी रखतें है, वे ई-बोटिंग के लिए एजीएम की सुचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार चुजर आईडी और पासवर्ड प्राज/जपन्न कर सकते है। चाँद कोई व्यक्ति/सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल( CDSL )/ एनएसडीएल( NSDL ) के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर अपना सोट डाल सकता है। सदस्य ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साध पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमेट खाते के लॉगिन क्रेडेशियल का उपयोग करक भी लॉगिन कर सकते हैं। ई-वांटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को अपने डीमेंट खातों में अपने मोबाइल नंबर और इंमेल-आईडी अपडेट करने की बलाह दी जाती है।
- सदस्य, जो सीसी/ओएसीएम की संसिधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित है और उन्होंने रिमोट (7) ई-बोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना बोट नहीं डाला है अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वह एजीएम के दौरान भी उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे ।
- (8) वीसी / ओएवीएम संविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के नहत कोरम की गणना में झामिल माना जाएगा।
- यदि आपके पास सीडीएसएल ई-कोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-कोटिंग में भाग लेने के संबंध मे (9) कोई प्रहन या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री में. 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं ।
- ( 10 ) इलेक्ट्रॉनिक माच्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, ( सीडीएसएल, सेंट्ल डिपॉजिटरी सर्विसेज ( इंडिया ) लिमिटेंड, ए विंग, 25वीं मॅजिल, मैराश्चन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंद्रस, एनएम जोझी मार्ग, लोअर परेल ( पूर्व ), मुंबई -400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजा जा सकता है चा टोल फ्री नं. 1800225533 पर संपर्क किया जा सकता है ।
- ( 11 ) कम्मनी के निदेशक मंडल ने दूरस्थ ई-चोटिंग एंव साधारण सभा के टौरान ई-चोटिंग प्रक्रिया क निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जाँच करने के लिए भी संदीप जैन ( सदस्यता संख्या एफसीएस 5398, सीपी नं. संख्या 4151 ) और उनकी अनुपरिश्वति में सुक्षी लता ज्ञानमलानी ( सदस्यता संख्य एकसीएस 10106, सीपी नं. संख्या 9774 ) मैसर्स एआरएमएस एण्ड ऐसोसिऐट एलएलपी, प्रैविटसिंग कम्पनी सचिव, जयपुर को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रू 0.75 ( पचड़त्तर पैसे ) प्रति ईविवटी शेयर ( 1 रू अंकित मुल्य पर ) ( अंकित मुल्य का 75 प्रतिशत ) लाभांश शेयरधारको की अनुमति के लिए प्रस्तायित किया है।कंपनी ने विशीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांज़ प्राप्त करने के पात्र सदस्यों का निर्धारण करन वो जननेत्रय में राखवार, २१ मिलंबर २०२३ को'' रिकॉर्ड लिखि'' के रूप में तथ किया है (लाभांश) स्त्रोत पर कर कटौती के अधीन यदि लाग है ), चंदि एजीएम में घोषित किया जाता है, तो एजीएम के समापन से 30 दिनों की अवधि के भीतर उन सदस्य को भगतान किया जाएगा, जिनका नाम गुरूवार, 21 सितंबर, 2023 को सदस्य रजिस्टर में व्यावसायिक घंटो के बंद होने के समय दर्ज है। जिन सदस्यों ने अपने बेंक खाते का विवरण अपडेट किया है, उन्हें लाभांश का भगतान विभिन्न ऑनलाइन हस्तांरण माध्यम से किया जाएगा जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनका लाभांश वारंट/चेक उनव पंजीकृत पते पर भंजा जाएगा। सीधे अपने बैंक खातें में लाभांश प्राप्त करने में देरी से बच्चने के लिए, सदस्य से अनरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पाटिसिपेंटस, ( यदि झेयर डीमेंट में है ), और आरटीए/कंपनी, ( यदि शेयर भौतिक रूप में है ), के साथ अपने वैंक विवरण को अपडेट करें। वित्त अधिनियम 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसर, लाभांश आय सदस्यों के हाधों में कर योग्य है और कंपनी निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्त्रोत पर कर की कटीती ( टीडीएस ) करने हेतु बाध्य है। टीडीएस के अनुपालना हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए ( चंदि शेयर भौतिक रूप में है ) और डिपॉजिटरी ( यदि शेयर डीमैट मोड में हैं ) के साथ अपना पैन अपडेट करें ।

कृते जीनस पावर इन्फ्रास्ट्क्यर्स लिमिटेड स्थानः जनपर अंकित झांझरी कंपनी सचिव दिनांक: 4 सितम्बर, 2023

aiesh.bhatia1@coonawallafincorp.com के पास भेजना होगा।

संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेवसाइट पर अपने पंजीकरण के उपरांत इच्छुक केता/बोलीदाता को अपलोड किए गए नीचे उल्लिखित वस्तावेज की डार्ड कॉपी की रचयं सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त कर, इंगेल द्वारा उसे (पुनायाल फिनकॉर्प लिगिटेड के संबंधित प्रबंधक) श्री राजेश भाटिया, पता: पुनावाला फिनकॉर्य लिमिटेड, एससीओ 75, दूसरी मंजिल, फेज 9, मोडाली-160062, मोबाइल नं. 6284419316, ई-मेल आईडी:

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन दाखिल कर नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई-मीलामी भागीदारी अनिवार्य है, जो प्रस्ताय/निविध वेक्साइट पर उपलब्ध है। अपनी बोलियां जमा करने एवं ई-नीत्समी विक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी विक्री के विस्तुत निधम एवं शर्त हेतु वोलीदाताओं को पेयसाइट https://augeo.samil.in देखने की सलाह दी जाती है। यहां ऊपर तल्लिखित संस्थान की पेयसाइट पर ऑनलाइन वोली आयोजित की जाएगी तथा यह निविदा/ई-नीलामी दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्त के अनुसार होगी। निविदा दस्तावेज एवं नीलामी के विरतृत नियम एवं शर्ते वेबसाइट https://augeo.samil.in से ठाउनलोठ किया जा सकता है अथवा उसे पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेठ के संबंधित शाखा कार्यालय से मी संग्रह किया जा सकता है। ऑनलाइन जमा की गई संलग्निकाओं के साथ बोली प्रपन्न की प्रतिलिपि (युटीआर नम्य के उल्लेख के साथ) पुनावाला फिनकॉर्फ लि. (पूर्व में मैगमा फिनकॉर्च लि.) के संबंधित प्रबंधक के पास जमा करनी होगी। बोली प्रयत्र की प्रतिलिपि मध्य ऑनलाइन जम्म की गई संलग्निकाएं (यूटीआर नम्बर के उल्लेख के साथ) ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय से पहले संबंधित प्रबंधक श्री राजेश भाटिया, पताः पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेज, एससीओं 75, दूसरी मंजिल, फेज 9, मोहाली-160062, मोबाइल नं. 6284419316, ई-मेल आईडीः rajesh.bhatia1@poonawallafincorp.com, पूनाबाल फिनकॉर्प लिमिटेड (पूर्व में मैगमा फिनकॉर्प लि.) के पास चेजना होगा। और अधिक विवरण एवं जानकारी के लिए अधिकृत अधिकारी, **श्री राजेश भाटिया, मोबाइल न. +91 6284419316** से सम्पर्क करें।
- वहां ऊपर उल्लिखित अनुसूची में प्रत्याभूत सम्पत्तिवों के समुचित विवरण का उल्लेख करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है। इस धोषणा में किसी भी प्रकार की चुटि अथवा गलती अथवा भूल के लिए अधिकृत अधिकारी किसी भी रूप में जयाबदेह/जिम्मेदार नहीं होगा। प्रत्यामूत सम्पत्ति की बिळी आरहित मूल्य से अधिक ळीमत पर की जाएगी। नीलामी आरहित मूल्य से एक वृद्धि राशि से हुरू की जाएगी एवं
- बोलीदालगण न्युनतम रु. 10,000/- (रुपये दल हजार माञ) की राशि वृद्धि कर रवयं के बीच अपने प्रस्ताव में सुधार कर बोली लगाने के खतंत्र होंगे।
- वैध कूजर आईडी एवं पासवर्ड तथा एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए ईएमडी का भुगतान करने के साक्ष्य रखने वाले योलीदाताओं को ऑन लाइन ई-जीलामी में भाग लेने की अनमति दी जाएगी। अधिकल अधिकारी के पास बिना कोई कारण बलाए किसी भी समय किसी या सभी बोलियों को रह अथवा स्थीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इससे अलावा, अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी की प्रक्रिया समाध्य होने से पहले किसी भी समय ई-नीलामी को स्थगित या रद या निलम्बित वा रोकने अथवा नियम एवं शर्तों में बदलाव करने के भी अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में जनवा निर्णय अंतिम लोगा।
- अधिकत अधिकारी के समस्र अपने प्रस्ताव/बोली/निविदा के साथ सर्वोच्च बिकी मुल्य प्रस्तुत करने वाले केता/बोलीदाता के पक्ष में विज्ञी की पुष्टी की जोएगी। हालांकि, यह सिर्फ प्रत्याभूत ऋणदाता की पृष्टी पर गिर्भर होगा।
- सकल बोलीदाता की बयाना राशि जमा (ईएमडी) बिक्री की रकम के हिस्से के रूप में समायोजित कर दी/रखी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अधिकत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार किए जाने पर सफल बोलीदाता को उसी दिन अथवा अगले कार्यकारी दिवस को बिक्री मुल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले से जमा की नई ईएमडी के समायोजन के बाद, जमा करनी होगी। उक्त रकम जमा करने में विफल होने पर अब तु जमा की गई रकम (ईएमडी अथवा अन्य किसी मी रूप में) कंपनी द्वारा जब्द कर ली जाएगी एवं अधिकृत अधिकारी सम्मति को दोबारा बिक्री करने के लिए मुक्त होंगे।
- सिर्फ 25 प्रतिशत की राशि जमा करने से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पृष्टी के डकदार नहीं हो जाएंगे। बिक्री अधिकृत अधिकारी/ प्रत्यागृत ऋणवाता की पृष्टी पर निर्भर होगी।
- 0. उपरोक्त नियम के अनुसार 25 प्रतिशत की राशि जमा करने के उपरांत शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 15 दिनों के अंवर अध्वय कंपनी वे प्रत्याभूत जरणदाता के विवेक के अनुसार लिखित रूप से तथ किए गए निर्धारित समय के अंदर करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त उल्लेखानसार रकम का भगतान करने में विफल होने पर बोलीवाता द्वारा पहले से जमा की गई रकम जब्द कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की पुन नीलाम की जाएगी एवं विफल बोलीदाता के पास सम्पत्ति पर अथवा उसके किसी भी रकम पर कोई भी दावा/अधिकार नहीं होगा।
- ई-नोलामी की पृष्टी की तारीख से पहले किसी भी समय कर्जदार तथा/अथवा गारंटीदाता द्वारा अथवा उनकी ओर से "पूनावाला फिनकॉर्य लिमिटेड" अथवा पीएकएल (पूर्व में मैगमा फिनकॉर्प लि. अथवा एमएफएल) को उनके द्वारा खर्च किए गए सभी लागतों, शुल्कों तथा व्ययों की रकम अथवा उन्हें स्वीकृत उन रकमों के हिस्से की रकम का मुगतान कर दिए जाने पर सम्पत्ति की बिज्ञी रद्द की जा सकती है।
- . सिर्फ केला को सभी संविधिक बकाया/परिचारक शुल्क/जन्म बकाया के साथ पंजीवन शुल्क, स्टैम्प ठवुटी, करों इत्यादि का वहन करना होगा। . जिस नाम पर बोली जमा की गई है उसी नाम पर बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा
- 14. अधिकृत अधिकारी अथवा "पुनावाला फिनकॉर्ग लिमिटेड" अथवा गीएफएल ई-नीलामी के जरिए बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति के संबंध में किसी भी तरह के शुरुक, अधिकार, ऋग भार अथवा सरकार के प्रति किसी भी तरह के बकाया तथा/अथवा तृतीय पक्ष दावे इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति के संबंध में किसी भी तरह के ऋणभार के साथ सम्पत्ति कर के संविधिक देय बकाया राशि, बिजली की बकाय राशि/शुल्क/वैध अधिकार इत्यादि यथा देनदारियों/ऋण भार के बारे में स्वतंत्र जांच कराने की सलाह दी जाती है, जिसका वहन सिर्फ क्रेता को करना होगा।
- . बोलीवाता को पर्वाप्त इंटरनेट की कनेक्टिविटी, विद्युत की व्यवस्था इत्यादि स्वयं करनी होगी। "पुनायाला किनकॉर्प लिमिटेड" अथवा पीएफएल अधिकृत अधिकारी/ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता इंटरनेट की खराबी, बिजली गुल होने के कारण अथवा किसी भी तकनीकी मढबढी अथवा ई नीलामी की प्रक्रिया में होने वाली रूकावट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- . असफल बोलीवाता की ईएमडी बिना किसी व्याज के नीलामी बिळी की प्रक्रिया के समाप्त होने के 15 कार्यकारी दिनों के अंदर वापस कर द जाएगी। इस संबंध में उक्त बोलीदाता किसी भी प्रकृति का कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं।
- जलीमांति तरीके से नहीं भरे गए प्रस्ताय/बोलियां अध्यया इंएमढी या आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं रहने पर अध्यया नीलामी बिक्री की सूचना में निर्धारित तारीख एवं समय के जपरांत प्राप्त प्रस्तायों/बोलियों को अवैध माना जाएगा तथा जसे तत्काल रह कर दिया जाएगा तथा आवेदक/बोलीदाता इस संबंध में पुनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड (पूर्व में मैगमा फिनकॉर्प लिमिटेड के नाम से झाल) अथवा अधिकृत अधिकारी के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकते हैं।
- अभिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा रह करने का अधिकार सुरक्षित है। इस तरह के निर्णय के संबंध में कंपनी अधवा अधिकृत अधिकारी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकता है।
- इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी प्रक्रिया में सम्पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेना होगा तथा पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड/पीएफए (पर्व में मैगमा फिनकॉर्प लिमिटेंड के नाम से जात) के किसी भी अधिकारी के दुवाब एवं प्रभाव में नहीं जाना होगा तथा वे इस ई-नीलामी के परिणा . सम्पूर्ण रूप से अवगत हैं। इस संबंध में इच्हुक बोलीदाता को पीएचएफएल/पीएफएल अधवा उनके अविकृत अविकारी से कोई सहायता प्रा नहीं करना होगा एवं उक्त रकम पर ब्याज से संबंधित अथवा यहां ऊपर उल्लेखित ब्यीरे को छोड़कर जमा रकम वापस पाने के हकदार नहीं होगे।
- 20. ईएमडी जमा की तारीख एवं ई-नीलामी की तारीख को छुट्टी का विन घोषित होने पर संबंधित तारीख खतः अगले कार्यकारी दिवस में रूपांतरित कर दी जाएगी।

#### सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 15 दिनों की संवैधानिक सूचना

1. कर्जवार/गारंटीवाता को एतवढ़ारा सुचित किया जाता है कि ई–गीलामी की तारीख से महले ऊपर उल्लिखित रकम के साथ वर्तमान तारीख तक ब्याज एवं आनुषगिक व्यय का भुगतान कर दें। अन्यथा प्रत्यापूत आस्तियां/सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी तथा वकाया रकम, अगर कोई हो तो, आपसे व्याज सहित उसे वसुला जाएगा। अधिकत अधिकारी ान : फतेहाबाद पनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड तारीख : 05,09,2023

के लोगू प्रावधाना एवं भारताय प्रावधान आर ावानमय बाढ द्वारा जारा भारत्व स. SEBI/HO/CFD/CHD/CFD/CHD/FCHD/AUD/FCH//2021/, परिपत्र सं. मई, 2020), परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (दिनांक 15 जनवरी, 2021), परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (दिनांक 13 मई, 2022) तथा नवीनतम परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 (दिनांक 5 जनवरी, 2023) ("सेवी परिपत्र") के अनुपालन में 24वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए कंपनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:30 बजे सामान्व स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रोंसेंग ('वीसी') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जएगी।

ई-वोटिंग सहित बीसी सविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लौंगिन विवरण के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए कंपनी की 24वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 4 सितंबर, 2023 तक ई मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को घेनी जा चुकी है जिनके ई मेल फ्ले कंपनी वा रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट वा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत थे, साथ ही ये कंपनी की वेबसाइट <u>https://www.ptcindia.com/annual-report</u>/ पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bscindia.com और www.nscindia.com पर और नेशनल सिवयोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.cvoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। वर्षिक रिपोर्ट की हार्ट/इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन श्रेयरधारकों को भी भेजी जएगी जो हमें cs@ptcindia.com पर लिखकर इसके लिए अनुरोध करेंगे।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की घारा 108 के प्रावधानों, सेची (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक – 2 और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को 24वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाने वाली रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एवीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। एवीएम के नोटिस में ठस तरीके के बारे में निर्देश शामिल हैं जिसमें शेवरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के समय ई-वोटिंग ढारा अपना वोट डाल सकते हैं और वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वो सदस्य कट-ऑफ तारीख वानी बधवार. 20 सितंबर. 2023 ('कट-ऑफ तिथि') पर धौतिक रूप में य डिमटेरियलाइल्ड फॉर्म में स्टॉक में शेयर रखते हैं, वे एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट राज सकते हैं।

#### सभी सदस्वों को सचित किया जाता है कि:

- एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चोटिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा;
- रिमोट ई-चोटिंग रविवार, 24 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी;
- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 26 सितंबर, 2023 को ज्ञाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी;
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख 20 सितंबर, 2023 है और कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से माने;
- कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेवर प्राप्त करता है और एजीएम की मुचना मेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और शेवर धारण करता है औ वोट देने के लिए पात्र है, एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है या हमें cs@ptcindia.com पर ईमेल लिखें। बदि ऐसा व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- सदस्य घ्यान दें किः क) बोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल ढारा रिमोट ई-बोटिंग मॉह्यूल को अश्रम कर दिवा जाएग और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट ठालने के बाद, सदस्य को बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे: ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एऔएम में उपलब्ध कराई जाएगी और घ) वह व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉलिटरी द्वारा बनाए गए लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- श्री आशीष कपूर, प्रैंबिटसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी नंबर 7504) को अधिनियम और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार निष्पथ और पारदर्शी तरीके से 24वीं एजीएम में संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए कंपनी द्वारा संवीधक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- संवीधक अपनी अंतिम रिपोर्ट 24वीं वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के बाद, लेकिन एजीएम के समापन से 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत करेगा; और बैठक के अध्यक्ष वा उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति संवीधक द्वारा ओंतेम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 24वीं वार्षिक आम बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा। संवीधक की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी की वेबसाइट https://www.ptcindia.com/ पर रखे जाएंगे और साथ ही बॉन्जे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ झॅंडेया (एकएसई) और एनएसडीएल को सुचित किए जाएंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ।
- एजीएम/ई-वेटिंग आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य <u>www.evoting.nsdl.com</u> के ठाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथ e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल करें या <u>c-voting@nsdl.co.in</u> पर वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हावे को अनुरोध भेजें।
- 10. बैठक में घोषित होने पर वितीय वर्ष 2022-23 के लिए इंक्लिटी शेयरों पर अंतिम लाभांश के लिए पात्र सदस्यों के नाम निर्धारित करने हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर कुक गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

|                         | बाठ का आसानुसार              |
|-------------------------|------------------------------|
|                         | पीटीसी इंडिया लिमिटेड के लिए |
|                         | हस्ता./-                     |
| दिनांक: 05 सितंबर, 2023 | ( राजीव माहेफ्वरी )          |
| स्थानः नई दिल्ली        | कंपनी सचिव                   |

electronic means as well

September 20, 2023;

Place : Cuttack Date : September 04, 2023

ORISSA ARTISANS AND WEAVERS LIMITED CIN : U172260R2010PLC012597, Tel. +91-671-2343200 Regd. Off : Shed No. 17/8, Industrial Estate Khapuria, Madhupatha, Cuttack-753010, Orisse

NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION

notice is hereby given that: The 13th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at Shed No. 17/B, Industrial Estate Khapura, Madhupatna, Cuttack-753010, Orissa on Wednesday, 27\* September, 2023 at 11:30 A.M to transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of ArM-

AGM; Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 have been sent to the members whose email IDs are registered with the Company. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on O4<sup>st</sup> September, 2023.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date of 20° September, 2023 may cast their vote electronically on the resolutions as set out in Ordinary Business in the Notice of ACM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are aformed their the security of the members are security of the members are aformed their security of the members are security of the members are aformed their security of the members are security of the members

The Ordinary Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by

The out-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM

September 20, 2023: Any person, who acquires shares of the Company and becomemember of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off data i.e. Soptember 20, 2023: may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@insdi.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for evoting there existing user ID and password can be used for cashing vote. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the adoresaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cash by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM, and c) the members who have cash their vote by remote e-voting prior to the AGM may also shard the AGM but shall not be emitted to cash their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the tacility of remote e-voting as well as voting st the AGM through ballot paper. The notice of AGM is available on NSDL's website https://www.evoting nsdi.com in case of queries/privances relating to e-voting.

The income or income is avarance on incode is velocite https://www.avoiling.ned.com in case of queries/grievances relating to e-voling, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voling user members in the Downloads Section of https://www.avoting.nsdi.com; or call on tol free no. 0224886 7000 and 022-2499 7000 or contact Mr. Avulhar Saxeen (Assistant Manager), National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4° Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbal-400013 at designated amail IDs; evoling@rad.co.h or anubhark@rad.co.in. The members may also contact Mr. Ninging Patra, Finance Executive at his email-id finance@orissaartisans.com or at Phone. No. +917008258291.

For Orissa Artisans and Weavers Limited Sd

Sti-Jagat Singh Bortwal Director DIN: 02696633 R/o. C 1 / 516, Second Floor, Chitrakoot Scheme, Valshali Nagar, Jaipur-302021

The remote e-voting shall commence on Sunday, September 24, 2023 at 9:00 A.M

The remote e-voting shall end on Tuesday, September 26, 2023 at 05:00 P.M;

## 2 COMMERCIAL

#### GALLANTT

#### GALLANTT ISPAT LIMITED

Regd. Office: "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi – 110014, Tel No. 011-45048767, Fax: 011-45048767, Email ID: csgmi@galantt.com Website: www.galantt.com, CIN: L27109DI 2005PI C350524

## INFORMATION REGARDING 19<sup>17</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF GALLANTT ISPAT LIMITED (TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING) / OAVM (OTHER AUDIO VISUAL MEANS)

NOTICE is hereby given that the 19" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the 30" day of September, 2023 at 12.30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, respectively, read with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI has vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/2023/001 dated January 05, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as "SEBI Circulars") and other applicable circulars permitted holding of the Annual General Meeting ("Meeting/AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual General meeting ( weeking only introduit video contention ( ) to poster solutions, Means ("OWM"), without the physical presence of the Members, Directors, Audiors, Debenture Trustee or other eligible persons at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act, 2013"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEI Listing, Regulations) and advessed MCA and SEBI Circulars, the AGM of the Company will be conducted through VCIOAVM.

The Notice of the 19<sup>°</sup> AGM setting out the businesses to be transacted thereat and the Annual Report for the year ended 31° March, 2023 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. Members may note that the Notice of 19" AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website www.gallant.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com; and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting, voting during the time of AGM and participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the AGM.

If your email id is already registered with the Company/ Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address.

In case you have not registered your email address with the Company/ Depository and/or not updated your bank account mandate for receipt of dividend, please follow instructions below:

#### To register your email address for obtaining Annual Report, Notice and Physical Holding login details for e-voting etc. Send an email request to the Company at csgm@gallant.com providing Folio no., Name of Shareholder(s), scanned copy of the share certificates (front and back), scanned copy of self-attested Pan Card of all holders, scanned copy of self-attested Address proof of all holders for registering email address.

For receiving dividends directly in your bank accounts through National Electronic Clearing System (NECS) – Dividend not recommended by Board for F.Y. 2022-23


Send NECS Mandate Form available on the Company's website http://www.gallantt.com duly filled in and signed by all holders along with below mentioned attachments addressed to 'The Company Secretary, Gallantt Ispat Limited, "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Dehi-110014. Self-Attested Conv of Pan Card of all holders.

· Cancelled Cheque Leaf having Name (if name is not printed on cheque self-attested copy of first page of pass book) of all holders.

Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

The shareholders are requested to update their PAN with the Company (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode). For Gallantt Ispat Limited

Sd/-(Nitesh Kumar) Place: New Delhi **Company Secretary** Dated: September 04, 2023 M. No. F7496



L&FS Engineering and Construction Company Limited CIN: L45201TG1988PLC008624 od. Office: D.No.8-2-120/113, B-Block, 1st Floor, Sanail Info Park, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500033

Ph: 040-40409333; Fax: 040-40409444; Email: cs@ifsengg.com; Web: www.ifsengg.com NOTICE OF 34<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

### & E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 34" Annual General Meeting ('AGM') of IL&FS Engineering and Construction Company Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 26" September, 2023 at 3 PM (IST) through Video Conferencing ('VC'). Other Audio Visual Means ('OAVM') without the physical presence of Members at a common venue. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

2.In accordance with General Circular No.10/2022 dated 28" December 2022, General Circular No.2/2022 dated 5\* May 2022, General Circular No.2/2021 dated 13" January, 2021, General Circular No.20/2020 dated 5" May, 2020, General Circular No.14/2020 dated 8" April 2020, General Circular No.17/2020 dated 13" April, 2020 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with circulars issued by the Securities and Exchange Board of India("SEBI") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Notice of AGM and the Annual Report containing inter alia, the Board's Report, Auditor's Report, Audited Standalone and Consolidated Financial Statements etc. for the financial year ended 31" March, 2023 have been sent electronically on 28" August, 2023 to those members, whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The copy of the Report is also available on the Company's website i.e. www.llfsengg.com, websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL), appointed by the Company for providing remote evoting / e-voting facility at the AGM at www.evoting.nsdl.com

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through VC/OAVM shall only be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013("Act")

4. The notice of AGM inter-alia includes the process and manner of remote e-voting / e-voting and instructions for participation in the AGM. The remote e-voting period commences on Saturday, 23" September, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Monday, 25" September, 2023 at 5:00 P.M. (IST) (both days inclusive)

5. The Register of Members for the purpose of AGM will be closed from Tuesday, 19<sup>1</sup> September 2023 to Tuesday, 26" September, 2023(both days inclusive)

The out-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of Members to avail electronic voting facility will be Monday, 18" September 2023. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the list of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM. Any person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. Any person who acquires shares and become member of the Company after dispatch

of notice and holding shares as on cut-off date may obtain login Id and password by sending a request over email at evoting@nsdl.co.in mentioning demat account number/folio number, PAN, name and registered address. However Members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/e-voting at the AGM. 8.A member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. 9.Shareholders will be able to inspect the documents referred to in the Notice electronically without any fee from the date of circulation of Notice upto the date of AGM. Members seeking inspection of such documents can send an email to cs@lfsengg.com

10. In case of any queries relating to e-voting, one may refer the e-voting user manual for the shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No. 022- 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send an email to evoting@nsdl.co.in. By Order of the Board

For IL&FS Engineering and Construction Company Limited

Place: Gurugram Date : 4\* September, 2023

## TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED CIN: L921990L1997PLC088865 Regd. Off.: Sec-B, PKT-1, Space No-301 and 302 LSC-7, Community Centre, Vasant Kunj, Sector B, New Delhi, South West Delhi-110070, India. Contact No.: +91 9810108253

Email: cs@touch/ ood in Website: www.tou

NOTICE

Notice is hereby given that the 26" Annual General Meeting ("AGM") of Touchwood Entertainment Limited (the "Company") is scheduled to be held on Friday, 29" September 2023 at 4 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Secretarial Standard-2 and the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), without the physical presence of the members to transact the Ordinary and Special Business as set out in the AGM Notice.

in compliance with the above circulars, electronic copies of the notice of the AGM along with Annual Report for the financial year 2022-2023 ("Annual Report") has been sent through e-mail to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository") and Transfer Agent, Skyline Financial Services Private Limited. The emailing of all Notices along with the Annual Report has been completed on Monday, September 4, 2023.

- In terms of Section 108 of the Act, read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members with the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the Resolution(s) mentioned in the AGM notice using electronic voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). In case, the member is unable to cast his/her vote on the facility of electronic voting platform provided by NSDL, then they shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Board has appointed Advitiva Vyas & Company, Practicing Company Secretaries, as scrutinizer for conducting the voting cess in a fair and transparent manner. The members may note the following:
- Members holding shares as on the cut-off date i.e., 22<sup>th</sup> September, 2023 may cast the vote electronically on business as set out in AGM Notice through such remote e-voting.
- Any person, who acquires shares and become a member of the Company after sending the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., 22" September, 2023, may obtain the login ID and password by sending an email to cs@louchwood in by mentioning his/her folio number/DP ID and client ID number. However, if you are already registered with National Securities Depository Limited (NSDL) fore-voting, then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
- The remote e-voting period begins on 09:00 A.M. (IST), on Tuesday, 26" September, 2023 and will end at 05:00 P.M. (IST) on Thursday, 28" September, 2023. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- d) Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or through e-voting during the AGM.
- The members who have already cast their vote by remote e-voting, prior to the AGM will be eligible to attend/participate in the AGM through the NSDL e-Voting system, but shall
- not be entitled to cast their vote again in the meeting. Members may note that the Notice of Annual General Meeting and the Annual Report fo FY 2022-2023 are also available on the Company's website <u>www.touchwood.in</u> as wel as on the website of National Stock Exchange of India Limited at <u>www.nseindia.com</u> also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) fo
- nembers and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of Wips://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll-free no.: 1800-222-990.
- Members may note that in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a Company after the 01" April, 2020 shall be taxable in the hands of members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source ("TDS") at the time of making the payment of dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The details about tax rates, documents
- required for availing the applicable tax rates are provided in the notice of the AGM. The results on resolutions shall be declared not later than 2 working days from the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at <u>www.touchwood.in</u> and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and the same shall be simultaneously communicated to National Stock Exchange of India Limited.
- BOOK CLOSURE: Pursuant to Section 91 and other applicable provisions of the Act and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfe Books of the Company shall remain closed from Saturday, 23" September, 2023 to Friday 29" September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 26th Annual General Meeting of the Company and to determine the eligibility of the members for the payment of the final dividend for the Financial Year 2022-2023.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting or through e-voting during the AGM

By order of Board of Directors For Touchwood Entertainment Limited

Place : New Delhi Date: 4<sup>th</sup> September, 2023

Sd/ Ashima Arora Company Secretary & Compliance Officer

(FDC) FDC LIMITED CIN: L24239MH1940PLC003176 Registered Office: B-8, MJ.D.C. Industrial Estate, Waluj - 431136, Dist. Aurangabad, Maharashtra, India. Corporate Office: C-3 Skyvistas, Near Versova Police Staforn, D.N. Nagar, Andheri (West), Mumbai - 400 053, Maharashtra India.

Tel: 022 2673 9100. E-mail: Investors@Edcindia.com. Website: www.ldcindia.com

NOTICE OF THE 83RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND INTIMATION OF BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that Eighty Third Annual General Meeting ("83rd AGM/AGM") of Members of FDC Limited ('the Company') will be held on Wednesday, September, 27 2023 at 10.00 a.m. through Video-Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('DAVM'), to transact the businesses as set out in the notice convening the 83rd AGM of the Company in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder and the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), Circular No. SEBI/H0/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/H0/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular SEBI/H0/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").

In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, Annual Report for the Financial Year 2022-23 along with the Notice of 83rd AGM has been sent electronically to all the Members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agents, M/s. Link Intime India Private Limited /Depository Participants ("DPs"), on September 04, 2023.

The Annual Report including the Notice of 83rd AGM can be accessed and downloaded from the Company's website at https://www.fdcindia.com/annual-report. Additionally, it can be accessed on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com, being the agency appointed by the Company for providing e-voting and VC/OAVM facility for the AGM.

#### The Members whose e-mail addresses are not registered with the Company are requested to do so by following the process given below:

For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, name, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's email address investors@fdcindia.com or to RTA at mt.helpdesk@linkintime.co.in



#### NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting (AGM) of the Members of Chennai Super Kings Cricket Limited will be held on Wednesday, the 27th September 2023 at 9.30 A.M. [Indian Standard Time (IST)] through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 17/2020. 20/2020. 02/2021. 02/2022 and 10/2022 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020,13th January 2021, 5th May 2022 and 28th December 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') allowing the Companies to conduct the AGM through VC/OAVM, to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated 14th August, 2023. The Notice of 9th AGM along with the Explanatory Statement and the Annual Report 2023 have been sent by email on 04.09.2023 to those members who have registered their email addresses with the Company / Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants and no physical / hard copy of the same will be sent by the Company. Members may please note that the said documents are also available on Company's website at ings.com and on the website of Central Depository Services

**PTC India Limited** CIN: L40105DL1999PLC099328 Regd. Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066 Website: Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200. Fax: 011-41659144

E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com NOTICE OF 24" ANNUAL GENERAL MEETING AND **E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS** 

This is in continuation to our earlier communication given on August 29, 2023, whereby Members of PTC India Limited ("the Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] read with Genera Circular Nos.14/2020 (dated 8" April 2020), 17/2020 (13" April 2020), 20/2020 (dated 5" May 2020), and the latest being 10/2022 (28" December, 2022), respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No(s). SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (12" May, 2020), SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (15" January, 2021), SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 (13" May, 2022) and the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 (5" January, 2023) issued by the

**PTC India** 

**Rajib Kumar Routray** 

Company Secretary & Compliance Officer

(CDSL) www.evotingindia.com, from where the said documents can be accessed / downloaded. The Link for accessing the Company's Annual Report 2023 is : https://www.chennaisuperkings.com/assets/InvestorsCorner/Final\_AR\_2023.pdf

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and the MCA Circulars, the Company is pleased to provide to members the facility to cast their vote on resolutions proposed to be considered at the Ninth Annual General Meeting, by electronic means and the items of business may be transacted through the facility of remote e-voting and e-voting during the AGM provided by CDSL. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 20.09.2023. The remote e-voting period commences on 23.09.2023 (9:00 A.M. (IST)) and ends on 26.09.2023 (5:00 P.M. (IST)). During this period, shareholders of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 20.09.2023, may cast their vote by Remote e-voting. The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have cast their vote by Remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM.

Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through Remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

Members who have not registered their e-mail IDs with the Company / RTA / Depository Participants (DPs) can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting during the AGM in virtual mode as per the procedures detailed in Note No. 17 of the Notice of the 9th AGM.

The detailed procedures for Remote e-voting (prior to AGM), participating in the meeting through VC/OAVM and e-voting during AGM are explained in Note No.17 of the Notice of 9th AGM and is also available on the website of the Company at www.chennaisuperkings.com.

For any information or any query on Remote e-voting and e-voting during AGM, Members may refer to the instructions mentioned under Note No.17 of the Notice of the 9th AGM sent by email or contact Mr.K.Balasubramanian, General Manager, Integrated Registry Management Services Private Limited (RTA), Tel No.: 044-28140801 to 28140803; email: corpserv@integratedindia.in or contact Mr.Rakesh Dalvi, Toll free No : 1800-22-55-33, email helpdesk.evoting@cdslindia.com or Mr.S.Sriram, Tel.: +91 9941907071, email : investor@chennaisuperkings.com by mentioning their DP and Client ID / Folio No.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after forwarding the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 20.09.2023, may obtain the login ID and password by sending an email to investor@chennaisuperkings.com or corpserv@integratedindia.in or helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their DP ID and Client ID. However, if you are already registered for e-voting, then you can use your existing user ID and password to login and cast your vote. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password, please refer to the instructions for Remote e-voting and e-voting during the AGM provided in Note No.17 of the Notice of AGM. Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of CDSL.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to attend the AGM through VC / OAVM and avail the facility of Remote e-voting or e-voting during the AGM.

Smt.P.R.Sudha, Practicing Company Secretary (C.P.No.4468), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process of Remote e-voting and e-voting during AGM in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall submit her report to the Chairman not later than three days from the conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorized by him in writing will declare the result forthwith. The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the websites of the Company and CDSL forthwith.

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21.09.2023 to 27.09.2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members may please note that as the AGM is being conducted through Virtual Mode i.e. VC/OAVM, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the Ninth Annual General Meeting. The attendance of Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

|                   | For Chennai Super Kings Cricket Limited |
|-------------------|---|
| Place : Chennai   | K.S.Viswanathan                         |
| Date : 04.09.2023 | Wholetime Director                      |

Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular/s"), the 24" Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Wednesday September 27, 2023 at 12:30 P.M. will be convened through Video Conferencing ("VC") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice of 24" AGM.

The process of sending the Notice of 24" AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2023 along with login details for joining the AGM through VC facility including e-voting has been completed by 4" September, 2023 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars, as well as the same are also available on Company's website at https://www.ptcindia.com/annual-report/, Stock Exchanges' websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdi.com. The hard/electronic copy of annual report will also be sent to those shareholders who request for the same by writing us at cs@ptcindia.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations. Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) on all resolutions set forth in the Notice of the 24° AGM. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through VC. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023 ("Cut-off date") may cast their votes electronically on the resolutions as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of NSDL.

All the members are informed that:

- The businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means:
- The remote e-voting shall commence on Sunday, 24" September, 2023 at 9.00 a.m. (IST);
- The remote e-voting shall end on Tuesday 26" September, 2023 at 5:00 p.m. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 20" September, 2023 and a person who is not a Member as on the out-off date may treat this Notice for information purposes only;
- Person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM or write an email to us at cs@ptcincla.com. If such a person is already registered with NSDL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote.
- Members may note that; a) the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
- Shri Ashish Kapoor, Practicing Company Secretary (CP No. 7504), has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process at 24" AGM in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules
- The Scrutinizer will submit its final report after the conclusion of voting at the 24" Annual General Meeting but not later than 2 (two) working days from the closure of AGM; and the Chairman of the meeting or any other person authorized by him in that behalf shall announce the result of voting on the resolutions taken up at the 24" Annual General Meeting simultaneously upon submission of final report by the Scrutinizer. The results along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website at https://www.ptcindia.com/ and simultaneously be communicated to the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange of India (NSE) and NSDL and be displayed at the registered office of the Company.
- In case of any queries related to AGM/ E-voting etc., the Member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on. 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at e-voting@nsdl.co.in.
- 10. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from Thursday, the September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for final dividend on Equity Shares for the financial year 2022-23, if declared at the meeting. By order of the Board

| and to see the second     | Sd/               |
|---------------------------|-------------------|
| Date: 5th September, 2023 | (Rajiv Maheshwari |
| Place: New Delhi          | Company Secretary |

For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s.

Members may attend and participate in the AGM only through the VC/OAVM facility, as indicated in the notice of the meeting. Please note that there will be no provision for ending and participating in person at the 83rd AGM of the Company.

#### Instructions for Remote e-voting and e-voting during the AGM:

Pursuant to provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of Listing Regulations. the Company is pleased to provide facility to cast their vote electronically ("remote evoting") on the businesses as set forth in the Notice of the AGM. The facility for e-voting will also be provided during the AGM. Accordingly, members who have not cast their vote by remote e-voting will be able to vote during the AGM. The Company has engaged the services of NSDL, who will provide the e-voting facility of casting votes to member using a remote e-voting system (e-voting from a place other than the venue of the AGM) "remote e-voting") as well as e-voting during the AGM ("e-voting at the AGM")

The Members, whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners maintained by the Depositories as of Wednesday, September 20, 2023 ("Cut-off date"), are entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as e-voting system during the AGM. The remote e-voting period will commence on Sunday, September 24, 2023 at 9.00 a.m., and will end on Tuesday, September 26, 2023 at 5.00 p.m. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. on Wednesday, September 20, 2023 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialization form, physical form and members who have not registered their email addresses is provided in the notice of the AGM. Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again on such resolution(s) for which the Member has already casted the vote through remote e-voting.

A person who has acquired the shares and has become a member of the Company after the dispatch of the Notice of the 83rd AGM and prior to the Cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023 can obtain/generate the user ld and password as per the instructions provided in the notice of AGM.

In case you have any queries or issues regarding attending AGM, remote e-voting or evoting System, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, under the help section or write an email to Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President, (NSDL) at evoting@nsdl.co.in or contact at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President, at National Securities Depo: Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, Maharashtra, India or send an email to evoting@nsdl.co.in or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

#### **Book Closure:**

Date: 04t Place: Mi

For PTC India Limited


Pursuant to provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 21, 2023, to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the 83rd AGM of the Company.

#### Important information for the Shareholders Updation of KYC Details

The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN), KYC details and nomination by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the said details to their depository participants with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form can submit these details to Link Intime India Pvt. Ltd. SEBI vide its circular dated March 16, 2023 has mandated the RTA's to freeze the folios not having these details after October 01, 2023.

#### For FDC Limited 24/-

| Varsharani Katre<br>Company Secretary & Compliance Officer |
|--|
|  |







## संक्षेप में

## राजेश नांबियार बने नैसकॉम के चेयरपर्सन

सॉफ्टवेयर कंपनियों के राष्ट्रीय निकाय नैसकॉम ने कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राजेश नांबियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने की सोमवार को घोषणा की। नैसकॉम ने कहा कि नांबियार संगठन के चेयरपर्सन के रूप में अनंत माहेश्वरी की जगह लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष माहेश्वरी का नैसकॉम चेयरपर्सन के रूप में कार्यकाल पुरा हो गया है। अभी तक नांबियार नैसकॉम के वाइस चेयरपर्सन थे।

## इंडिगो 10 और ए320 नियो विमान खरीदेगी

इंडिगो ने 10 और ए320 नियो श्रंखला के विमानों का ऑर्डर देने का फैसला किया है। ये विमान एयरलाइन द्वारा पूर्व में दिए गए 1,000 विमानों के ऑर्डर के अतिरिक्त होंगे। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि उसके निदेशक मंडल ने सोमवार को एयरबस के साथ 10 अतिरिक्त ए320 नियो विमानों का ऑर्डर देने और खरीद समझौते में संशोधित करार को जोडने की मंजुरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि ये 10 विमान 2019 के मूल 300 निगान ऑर्टन का लिएसा लोगे।

# सिप्ला की दौड़ में टॉरंट आगे अधिग्रहण की तैयारी

Cipla

House

देव चटर्जी मुंबई, 4 सितंबर

•हमदाबाद की दवा कंपनी टॉरंट फार्मास्युटिकल अपनी प्रतिस्पर्धी के सिप्ला अधिग्रहण के लिए अग्रणी बनकर उभरी है। उसकी बोली अमेरिकी निजी इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन की पेशकश के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक है।

इन घटनाक्रम से अवगत एक अधिकारी के अनुसार, जहां ब्लैकस्टोन ने करीब 900 रुपये प्रति शेयर पर अपनी बोली सौंपी थी, वहीं टॉरंट की नकदी पेशकश करीब 1,200 रुपये प्रति शेयर है, जो मौजूदा बाजार भाव के आसपास है।सिप्ला का शेयर सोमवार को 1,239 रुपये पर बंद हुआ।

टॉरंट फार्मास्युटिकल और ब्लैकस्टोन के अधिकारियों ने इस संबंध में प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। सिप्ला में प्रवर्तक हमीद ने इस संबंध में भेजे गए ईमेल संदेशों का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि हमीद परिवार टॉरंट पेशकश पर दो या तीन सप्ताह में निर्णय ले सकता है। अन्य अधिकारी ने कहा कि ने अब

| विमान आडर का १६स्सा होग।<br>सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड<br>CIN: L26942OR1991PLC002865<br>पंजीकृत कार्यालव: ज्ञाम : बरुपाली, ढाकधर:<br>केसरामल राजगंगपुर, जिला सुंदरगढ,<br>ओडिशा-770017  | माना सकता हा अन्य<br>सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड<br>CIN- L26942OR1991PLC002865<br>पंजीकृत कार्यात्वरः प्रानः बरूपाली, डाकपरः<br>केरारामल राजगंगपुर, जिला सुंदरगढ,<br>स्रोडिशा-770017   | आधकारा न कहा क<br>ब्लैकस्टोन ने अब<br>तक अपनी पेशकश<br>संशोधित नहीं की है<br>और मौजूदा बाजार<br>भाव को ऊपर माना<br>जा रहा है।  |
|---|--|--|
| सूरवन्ता<br>कंपनी अविनियम, 2013 की घारा 108<br>तथा स्टॉक एक्सबंजो के साथ यूवीकरण<br>अनुबंध के अनुखंद 35बी के अनुसार,<br>एतदहारा सूबना दी जाती है कि कंपनी की<br>32वी वार्षिक साधारण बैठक के परेश्व के<br>लिए सदस्यों को एनएसठीएल की वेबसाइट<br>https://www.evoting.nsdl.com<br>हारा प्रदत्त ई-वोटिंग सेवा के जरिए उनके<br>वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ठालने की सुविध<br>प्रुकवार, 8 सितम्बर, 2023 को खूबह 9.00<br>बजे आरम्स होनी उथा दविवार, 10 सितब्बर,<br>2022 को अपराहन 05.00 बजे समाप्त<br>होनी। वोटिंग की विस्तारित निर्देशावलियां<br>वार्षिक प्रतिवेदन 2022-2023 में एजीएग<br>की यूबना में दी गई है।<br>बोर्ड के आदेशानुसार<br>दिनांक: 04.09.2023 ए. एन. खंदुआ<br>कंपनी संधिय | रपुरवना<br>भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूवीकरण<br>दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताओं) विनियम,<br>2015 के विनियम 29 के साथ पठित<br>विनियम 47 के अनुपालन के तहत एतद्द्वारा<br>सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित<br>व्यवसायिक पहलूओं के साथ अन्य विषयों<br>पर चर्चा करने के लिए कंपनी के निदेशक<br>मंडल की बैठक पंजीकृत कार्यालय में सामवार,<br>11 सित्मबर, 2023 को आयोजित होगी:<br>1. कंपनी के साधारण कार्यकलाभों पर<br>चर्चा।<br>2. अध्यक्ष की अनुपाति पर अन्य कोई<br>भी विषय, यदि कोई है, पर विचार<br>करने हेतु।<br>बोर्ड के आदेशानुसार<br>दिनांक : 04.09.2023 ए. एन. खदुआ<br>स्थान : बरूपाली कंपनी सचिव | अधिकारी ने कहा,<br>अधिकारी ने कहा,<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>()))<br>())))<br>()))<br>()))<br>())))<br>())))<br>())))<br>()))<br>())))<br>())))<br>()))<br>())))<br>())))<br>())))<br>()))))<br>())))<br>())))<br>()))))<br>()))))<br>()))))))) |


APP OF PENSUEU: है, जिनमें निजी इक्विटी कंपनियां भी 'पीई के लिए, कोई सौदा सही रणनीति शामिल हैं। सिप्ला राजस्व के संदर्भ में के साथ सही मुल्य पर कंपनी को खरीदना महत्वपूर्ण है। टॉरंट के मामले टॉरंट से बड़ी कंपनी है। अधिकारी ने में, वे व्यवसाय तैयार करना चाहेंगे और कहा, 'प्रवर्तक एक-दूसरे को अच्छी भविष्य में उन्होंने बिक्री की कोई योजना तरह से जानते हैं और सिप्ला इसे लेकर नहीं बनाई है।'

यह अधिग्रहण ओपन ऑफर की राह आसान करने में मददगार साबित होगा, जिसका आकार 6.75-7 अरब डॉलर होगा। अधिकारी ने कहा कि यह फार्मा क्षेत्र में संभवतः अब तक का सबसे बडा सौदा होगा। सिप्ला का बाजार पूंजीकरण सोमवार को 1 लाख करोड़ रुपये पर था। टॉरंट से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि समूह सिप्ला का अधिग्रहण करने के लिए कई निवेशकों से बातचीत कर रहा

उत्साहित है कि कंपनी सक्षम नेतत्व के अधीन आगे बढे।'

टॉरंट का बाजार पूंजीकरण मौजूदा समय में करीब 62,880 करोड़ रुपये है और इस साल मार्च तक उसके बहीखाते में करीब 827 करोड़ रुपये की नकदी थी। बर्नस्टीन के विश्लेषकों ने 30 अगस्त को अपने ग्राहकों को भेजी एक रिपोर्ट में कहा, 'हमारा मानना है कि यह सौदा टॉरंट ( प्रवर्तकों की मौजदा समय में 71 प्रतिशत हिस्सेदारी) में 20-25

प्रतिशत प्रवर्तक हिस्सेदारी बिक्री और निजी इक्विटी भागीदारी तथा विदेशी बैंकों से कोष उगाही के जरिये संभव है। सिप्ला और टॉरंट, दोनों ही नकदी संपन्न व्यवसाय हैं और बड़े कर्ज लेने से खरीदारों को समस्या नहीं हो सकती है।' रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉरंट संपूर्ण पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई है और उसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संबंधित दवाओं की बिक्री में भी दबदबा बना हुआ है, जिसमें सिप्ला की मौजुदगी तुलनात्मक तौर पर कमजोर है। इसमें कहा गया है, 'हमारा मानना है कि पोर्टफोलियो में समानता को दर किया जा सकता है। अधिग्रहण के



बाद संयुक्त इकाई उसे भारत में इस क्षेत्र

को अग्रणी बनाएगी।'

अधिग्रहण के लिए टॉरंट

की पेशकश ब्लैकस्टोन के

मुकाबले ३० प्रतिशत महंगी है

जहां ब्लैकस्टोन ने करीब

900 रुपये प्रति शेयर पर

अपनी बोली सौंपी थी, वहीं

टॉरंट की पेशकश करीब

1,200 रुपये प्रति शेयर है


अब तक का सबसे बडा

सौदा होगा

यह फार्मा क्षेत्र में संभवतः

#### आर्यमन गुप्ता नई दिल्ली, 4 सितंबर

सूचीबद्ध ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजिज के निदेशक मंडल ने जीरोधा के संस्थापकों निखिल व नितिन कामत की तरफ से प्रबंधित फर्मों को 100 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित करने की मंजूरी दी है। कंपनी ने सोमवार को नियामकीय सचना में ये बातें कही। पनी ने 4 रुपये वाले



आयुष्मान बरुआ बेंगलुरु, 4 सितंबर भारतीय आईटी सेवा कंपनियां

जेनेरेटिव आर्टीफिशल इंटेलिजेंस (जेनएआई) में निवेश बढ़ा रही हैं, क्योंकि ग्राहक प्रुफ-ऑफ-कॉनसेप्ट (पीओसी) पर खर्च करने और इस तकनीक में संभावना तलाशने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ काम करने को उत्साहित हैं। एवरेस्ट ग्रुप में पार्टनर

(टेक्नोलॉजी) नितीश मित्तल का कहना है, 'हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनियों के ग्राहक अपने टेक्नोलॉजी बजट का 1-3 प्रतिशत हिस्सा जेनएआई में प्रयोग के लिए निर्धारित कर रहे हैं, जिससे आईटी सेवा प्रदाताओं के लिए इसका लाभ उठाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ग्राहक जेनएआई के शुरुआती प्रभाव को लेकर आश्वस्त हैं।'

विश्लेषकों का कहना है कि जेनएआई से आईटी कंपनियों को तुरंत राजस्व कमाने में मदद नहीं मिल सकती है। मित्तल का कहना है, 'जेनएआई में बदलाव प्रदाताओं के लिए मार्जिन में मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि वे तुरंत इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं होंगे।' हालांकि जेनएआई आईटी प्रदाताओं के लिए मार्जिन अनुकुल

क्योंकि वे इसे ग्राहक परियोजनाओं के लिए समय की बचत के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मित्तल ने कहा, 'इसलिए, यह उन्हें समान कार्य पहले की तुलना में ज्यादा कारगर तरीके से करने में सक्षम बनाएगा। उदाहरण के लिए, शुरुआती परिणाम से संकेत मिलता हैं कि डेवलपर उत्पादकता 35 प्रश्तिात बढ़ सकती है, जिसकी वजह से टेक कंपनियों को बड़ी बचत करने में मदद मिलेगी।' डेलॉयट द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ

एआई इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार एआई में भरोसा बढ़ा है, क्योंकि आईटी क्षेत्र समेत विभिन्न व्यवसायों ने पिछले साल की तुलना में अपने एआई निवेश में वृद्धि दर्ज की है। डेलॉयट इंडिया में पार्टनर (कंसल्टिंग) प्रशांत कड्डी का कहा 'आईटी कंपनियां एआई इस्तेमाल में तेजी लाने के लिए कई कदम उठा रही हैं और एआई पहलों 00.560 इक्विटी शेयर 714 ं से लाभ हासिल कर रही हैं। स्पष्ट



### बदलाव पर जोर

 विप्रो अगले 3 साल में एआई क्षमताओं पर 1 अरब डॉलर निवेश करेगी

 इन्फोसिस ने टोपाज को पेश किया है और सभी वर्टिकलों में 80 जेनएआई परियोजनाओं पर काम कर रही है

 टीसीएस 50 से ज्यादा पीओसी और जेनएआई से जुड़ी परियोजनाओं में लगी हुई है

 कॉग्निजेंट अगले 3 साल के दौरान जेनएआई में 1 अरब डॉलर का निवेश करेगी

 एलटीआईमाइंडटी ने कैनवस डॉटएआई प्लेटफॉर्म पेश किया है

हाल में, विप्रो ने अगले तीन साल के दौरान एआई क्षमताएं उन्नत बनाने के लिए विप्रो एआई360 की पेशकश पर 1 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। विप्रो एआई360 एक एआई-फर्स्ट इनोवेशन इकोसिस्टम है जिसका मकसद एआई को ग्राहकों से जुड़े हरेक प्लेटफॉर्म, टूल और समाधान

में शामिल करना है। नैस्डैक सूचीबद्ध कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यशंस ने पिछले महीने कहा कि वह 3 साल के दौरान जेनएआई में 1 अरब डॉलर का निवेश करेगी। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी रवि कमार एस ने कहा, 'हमारा मानना है कि कॉग्निजेंट जेनएआई अवसरों की मुख्य लाभार्थी होगी और हमारे पास 100 से ज्यादा सक्रिय एआई इंगेजमेंट हैं और सैकडो परियोजनाओं में हमारी एआई सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।' इस साल मई में, इन्फोसिस ने अपना टोपाज प्लेटफॉर्म पेश किया।



स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 04.09.2023

आईडीबीआई बैंक लि.

एनपीए प्रबंधन समूह, आईडीबीआई टॉवर, 1वीं मजिल, बी-विंग, ठब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स

24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और सदस्यों को ई-वोटिंग की जानकारी वह 29 अगस्त, 2023 को दिए गए हमारे फहले संचार के क्रम में है, जिसके तहत पीटीसी इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को सचित किया गय

गए') के पालपानों और उसके तरन जनए पर नियमों और कॉप्रिंट कार्य संजालय लगा :

सेबी ने शापूरजी पालोनजी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खलासा नियमों का उल्लंघन करने पर शापुरजी पालोनजी ऐंड कंपनी पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि शापूरजी

संख्या 14/2020 (दिनांक 8 अप्रैल 2020), 17/2020 (13 अप्रैल 2020), 20/2020 (दिनांक 5 मर्ब 2020) और नवीनतम 10/2022 (दिनांक 28 दिसम्बर, 2022) ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित सेनी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सेनी (एलओडीआर) विनियम') के लागू प्रावधानों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (दिनांक 12 मई, 2020), परिपत्र सं, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (दिनांक 15 जनवरी, 2021), परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (दिनांक 13 मई, 2022) तथा नवीनतम परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 (दिनांक 5 जनवरी, 2023) ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में 24वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए कंपनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को दोपंडर 12:30 बजे सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रोंसेंग ('वीसी') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

ई-वोटिंग सहित वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 24वीं एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट 4 सितंबर, 2023 तक ई-मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल पते कंपनी वा रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट वा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेवी परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत थे, साथ ही ये कंपनी की वेबसाइट <u>https://www.ptcindia.com/annual-report</u>/ पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड/इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन शेयरधारकों को भी भेजी जाएगी जो हमें cs@ptcindia.com पर लिखकर इसके लिए अनुरोध करेंगे।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम को घारा 108 के प्रावधानों, सेवी (एलओहीआर) विनियमों के विनियम 44 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक – 2 और एमसीए परिपत्रों के अनपालन में सदस्यों को 24वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर नेशनल सिक्योरिटीज हिपीजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) हारा पदान की जाने वाली रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम में पडले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोट ठालने की सविधा प्रदान की जाती है। एजीएम के नोटिस में उस तरीके के बारे में निर्देश शामिल हैं जिसमें शेवरधारक रिमोट ई जोटिंग के माध्यम से या एजीएम के समय ई जोटिंग डारा अपना वोट डाल सकते हैं और वीमी के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। नो सदस्य कट-ऑफ तारीख़ यानी नुषवार, 20 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') पर भौतिक रूप में या हिमटेरियलाइन्ड फॉर्म में स्टॉक में शेयर रखते हैं, वे एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वीटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना चोट डाल सकते हैं।

सभी सदस्वों को सचित किया जाता है कि:

**PTC** India

- एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा;
- 2. रिमोट ई-चोटिंग रविवार, 24 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी;
- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 26 सितंबर, 2023 को ज्ञाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी:
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख 20 सितंबर, 2023 है और कोई व्यक्ति जो कट ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है. वह इस नोटिस को केवल सचना के उद्देश्य से माने:
- कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और शेवर धारण करता है और वोट देने के लिए पात्र है, एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है या हमें cs@ptcindia.com पर ईमेल लिखें। वदि ऐसा व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- सदस्य घ्यान दें किः क) वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल ग्रस रिमोट ई-वोटिंग मॉहबूल को अथम कर दिया जाएग और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट ठालने के बाद, सदस्य को बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट ढाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट ढालने के हकदार नहीं होंगे: ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एवीएम में उपलब्ध कराई वाएगी और ध) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या हिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग की संविधा का लाभ तताने का तकदार होगा।
- त्री आसीष कपुर, प्रैविटसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी नंबर 7504) को अधिनियम और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष और पारदशौँ तरीके से 24वीं एजीएम में संपर्ध ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए कंपनी द्वारा संवीधक के रूप में नियक किया गया है।
- मंतीक्षक अपनी ऑतम रिपोर्ट 24वीं वार्षिक आम बैटक में मतरान के समापन के बार लेकिन एतीएम के समापन में 2 ( टो ) कार्य दिवसों के भीतः प्रस्तुत करेंगा; और बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकत कोई अन्य व्यक्ति संवीधक द्वारा ओंतेम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 24वीं वार्षिक आम बैठक में लिए गए प्रस्ताचों पर मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा। संवीधक की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी की वेबसाइट https://www.ptcindia.com/ पर रखे जाएंगे और साथ ही बॉम्वे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) और एनएसडीएल को सुचित किए जाएंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ।

एजीएम/ई-वोटिंग आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.cvoting.nsdl.com के ठाउनलोड अनुभाग पर उपलब Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders 70% e-voting user manual for Shareholders देख संकते हैं या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल करें या <u>c-voting(a)nsdl.co.in</u> पर वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लव म्हावे को अनरोध भेजें। 10. बैठक में घोषित होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश के लिए पात्र सदस्यों के नाम निर्धारित करने हेतु कंपनी के

सदस्यों का रजिस्टर और शैयर ट्रांसफर बुक युरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। बोर्ड की आज्ञानुसा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के लिए हस्ता./ दिनांक: ०५ सितंबर, २०२३ (राजीव माहेश्वरी कंपनी सचिव

| स्थ | नः | नहं | दिल्ली |
|-----|----|-----|--------|
| _   | -  | _   |        |

| ТАТАРО   | टांटा पावर<br>रजि, आफिस : एनडीपीए<br>फोन :66112222, फैक   | पत्वं दिल्ली सरकार<br>ल हाउस, डडसन् ल<br>ल : 27468042, इंमेल  | ट्र <b>ब्यूप्रान रिनमिटेड</b><br>का संयुक्त उपक्रम<br>इन, किंग्सवे कंग, दिल्सी–110069<br>४: TPDDL@latapower-ddl.com<br>गाइट : www.lalapower-ddl.com   |
|--|---|---|---|
| 2  | शुद्धिपत्र /  | निविदा तिथि   | विस्तार Sep 05, 2023  |
| f  | नेविदा पूछलाछ सं.<br>कार्य का विवरण   | पूर्व<br>प्रकाशित<br>दिनांक   | संशोधित निविदा तिथि/बोली<br>जमा कराने की तिथि/बोली<br>खोलने की तिथि   |
| TPDDI /P   | MG/Tender/Banking-2023/01   | 10.08.2023  | 15.09.2023 at 1500 Hrs/<br>15.09.2023 at 1530 Hrs   |
| Notice Inviting bids for banking of up to<br>300 MW RTC / Slot-wise power on firm<br>basis for the period of 01.11.23 to<br>30.09.24.  |   | of LC/BG for an<br>the contracted e<br>@ Rs. 6.00/kwh   | s: "The condition of submission<br>amount equivalent to 25% of<br>nergy calculated<br>"has been removed - Please<br>rrigendum on TPDDL website.   |
|  | वेदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी<br>ww.tatapower-ddl.com→Ve   |   | लग<br>nder / Corrigendum Documents<br>Contracts - 011-66112222  |
|  | वार्षिक आम  |   | 2003528   |
| गल्बस हि   | वार्षिक आम<br>। सूचना दी जाती है कि<br>मिटेड के सदस्यों की वार्षिव  | <b>बैठक की स्</b><br>निम्नलिखित ले<br>5 आम बैठक श   | <b>ूचना</b><br>नदेन के लिए शमा इंजिन<br>निवार 30 सितंबर 2023 को   |
| गल्वस लि<br>गतः 9.30   | । सूचना दी जाती है कि ।   | <b>बैठक की स्</b><br>निम्नलिखित ले<br>5 आम बैठक श<br>ल, शॉप कम प  | <b>ूचना</b><br>नदेन के लिए शमा इंजिन<br>निवार 30 सितंबर 2023 को<br>हैसिलिटी सेंटर, पॉकेट—ए.   |
| गल्वस हि<br>गतः 9.30<br>डीएसआई   | । सूचना दी जाती है कि 1<br>मिटेड के सदस्यों की वार्षिव<br>बजे, एस–1, दूसरी मंजि   | <b>बैठक की स्</b><br>निम्नलिखित ले<br>5 आम बैठक श<br>ल, शॉप कम प  | <b>ूचना</b><br>नदेन के लिए शमा इंजिन<br>निवार 30 सितंबर 2023 को<br>हैसिलिटी सेंटर, पॉकेट—ए.   |
| वाल्वस लि<br>मातः 9.30<br>डीएसआई<br>साधारण<br>१. 31 म  | । सूचना दी जाती है कि 1<br>मिटेड के सदस्यों की वार्षिव<br>बजे, एस−1, दूसरी मंजि<br>आईडीसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेव   | बैठक की सु<br>निम्नलिखित ले<br>5 आम बैठक श<br>ल, शॉप कम प<br>रूस, बयाना, दिल्<br>लिए निदेशकों उ   | ूचना<br>नदेन के लिए शमा इंजिन<br>निवार 30 सितंबर 2023 को<br>क्रेसिलिटी सेंटर, पॉकेट–ए,<br>नी–110039 पर होगी।<br>गैर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट   |
| शाल्वस लि<br>मातः 9.30<br>डीएसआई<br>साधारण<br>1. 31 ग<br>के र<br>के र<br>जो  | । सूचना दी जाती है कि 1<br>मिटेड के सदस्यों की वार्षिव<br>। बजे, एस–1. दूसरी मंजि<br>आईडीसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेय<br>व्यवसाय:<br>गर्च, 2023 को समाप्त वर्ष के   | वैठक की सु<br>निम्नलिखित ले<br>5 आम बैठक श<br>ल, शॉप कम प<br>लिए निदेशकों 3<br>प्राप्त करना, विच<br>049518) को नि   | ूचना<br>नदेन के लिए शमा इंजिन<br>निवार 30 सितंबर 2023 को<br>क्रैसिलिटी सेंटर, पॉकेट-ए,<br>नी-110039 पर होगी।<br>गैर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट<br>गर करना और अपनाना।<br>देशक नियुक्त करने के लिए,  |
| शाल्वस हि<br>साधा रण<br>क्ष साधा रण<br>।. 31 <sup>3</sup><br>के र<br>ु<br>मा<br>पुली<br>(<br>. सिंघ<br>को :<br>पर :  | । सूचना दी जाती है कि<br>भिटेड के सदस्यों की वार्षिय<br>। बजे, एस–1, दूसरी मंजि<br>व्यवसाय:<br>तर्घ, 2023 को समाप्त वर्ष के<br>तथ लेखापरीक्षित बैलेंस शीट<br>ग्नीष कुमार अरोड़ा (DIN:000<br>रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो  | वैठक की सु<br>निम्नलिखित ले<br>5 आम बैठक श<br>ल, शॉप कन प<br>रस, बयाना, विल<br>लिए निदेशकों 3<br>प्राप्त करना, विव<br>049518) को नि<br>ते हैं और पाठ<br>काउंटेंट (फर्म प<br>मापन से 31.03.3                                   | ूचना<br>नदेन के लिए शमा इंजिन<br>निवार 30 सितंबर 2023 को<br>क्रैसिलिटी सेंटर, पॉकेट-ए.<br>ती-110039 पर होगी।<br>गैर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट<br>गर करना और अपनाना।<br>देशक नियुक्त करने के लिए.<br>र होने के कारण खुद को<br>जीकरण संख्या 001288N)<br>2028 को समाप्त वित्तीय वर्ष   |
| वाल्वस हि<br>मातः 9.3(<br>डीएसआई<br>डीएसआई<br>मा 31 <sup>3</sup><br>के र<br>जो<br>पुनरि<br>3. सिंघ<br>को :<br>पर :   | म्सूचना दी जाती है कि<br>मिटेड के सदस्यों की वार्षिय<br>बजे, एस-1. दूसरी मंजि<br>आईडीसी इंडरिट्रयल कॉम्प्लेक<br>व्यवसाय:<br>वार्थ, 2023 को समाप्त वर्ष के<br>वाथ लेखापरीक्षित बैलेंस शीट<br>स्तीष कुमार अरोज़ा (DIN:000<br>रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो<br>मैंयुक्ति के लिए पेश करते हैं।<br>ल मट्टा एंड कंपनी, चार्टर्ड अ<br>इस बार्षिक आम बैठक के सम<br>प्रायोजित वार्षिक आम बैठक<br>क के रूप में नियुक्त करना।   | वैठक की सु<br>निम्नलिखित ले<br>5 आम बैठक श<br>ल, शॉप कन प<br>रस, बयाना, विल<br>लिए निदेशकों 3<br>प्राप्त करना, विव<br>049518) को नि<br>ते हैं और पाठ<br>काउंटेंट (फर्म प<br>मापन से 31.03.3                                   | ूचना<br>नदेन के लिए शमा इंजिन<br>निवार 30 सितंबर 2023 को<br>क्रैसिलिटी सेंटर, पॉकेट-ए.<br>ती-110039 पर होगी।<br>गैर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट<br>गर करना और अपनाना।<br>देशक नियुक्त करने के लिए.<br>र होने के कारण खुद को<br>जीकरण संख्या 001288N)<br>2028 को समाप्त वित्तीय वर्ष   |
| गाल्वस लि<br>मातः 9.30<br>डीएसआई<br>साधारण<br>1. 31 <sup>3</sup><br>के र<br>औ <sup>2</sup><br>जो<br>पुनरि<br>1. सिंघ<br>को <sup>3</sup><br>परिष<br>परिष<br>परिष<br>परिष<br>वे <b>रोष</b> व्य | म्सूचना दी जाती है कि 1<br>मिटेड के सदस्यों की वार्षिय<br>बजे, एस-1. दूसरी मंजि<br>आईडीसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक<br>व्यवसाय:<br>वार्थ, 2023 को समाप्त वर्ष के<br>वाथ लेखापरीक्षित यैलेंस शीट<br>स्तीष कुमार अरोजा (DIN:00<br>रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो<br>मैंयुक्ति के लिए पेश करते हैं।<br>ल मट्टा एंड कंपनी, चार्टर्ड अ<br>इस बार्षिक आम बैठक के सम<br>प्रायोजित वार्षिक आम बैठक<br>क के रूप में नियुक्त करना।<br>बसाय:<br>ही अधिनियम, 2013 की धारा<br>नी की ओर से कोई भी ऋ | वैठक की सु<br>निम्नलिखित ले<br>5 आम बैठक श<br>ल, शॉप कम प<br>रुख, बयाना, विल<br>लिए निदेशकों अ<br>प्राप्त करना, विव<br>049518) को नि<br>ते हैं और पाठ<br>काउंटेंट (फर्म प<br>नापन से 31.03.3<br>के समापन तर<br>1 180 (1) (सी) | ूचना<br>नदेन के लिए शमा इंजिन<br>निवार 30 सितंबर 2023 को<br>क्रैसिलिटी सेंटर, पॉकेट-ए.<br>ती-110039 पर होगी।<br>और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट<br>गर करना और अपनाना।<br>देशक नियुक्त करने के लिए.<br>4 होने के कारण खुद को<br>जिंकरण संख्या 001288N)<br>2028 को समाप्त वित्तीय वर्ष<br>5 कंपनी के वैधानिक लेखा<br>के तहत निदेशक मंडल को |

रखे हुए हैं। या जाएगा। अचल संपत्तियों पर शुल्क बनाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना। बोर्ड के आदेशानुसार ह./-प्रीति सरीन निदेशक

प्रति शेयर के भाव पर जारी एआई विजन सुनिश्चित करने के लिए, सही एआई रणनीति के चयन, का प्रस्ताव किया है। यह र 100 करोड़ रुपये का बैठता प्रभावी बदलाव प्रबंधन और एआई और इसे मैसर्स कामत के तेजी से इस्तेमाल से इस तकनीक और मेसर्स आधारित परिवेश विकसित करने में सेएटस स्क्वैयर्ड को अनुपात में मदद मिलेगी।'

टित किया जाएगा। ासे निखिल कामत की फर्म में दारी 3.5 फीसदी हो गी,जो पहले एक फीसदी थी। जारा टेक्नोलॉजिज के सीईओ श मित्रसेन ने कहा, निखिल त भारत के तकनीकी क्षेत्र में याबी को प्रतीक हैं और जटाई ह रकम कंनपी के लिए काफी वान है क्योंकि हम भारत मे खित गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाना

इक्विटी शेयर जारी होने वाली ब से छह महीने के लिए लॉक ाएंगे। नई रकम का इस्तेमाल गी की पूंजीगत जरूरतों, वृद्धि ोजना (रणनीतिक अधिग्रहण विभिन्न कंपनियों में निवेश )

मत एसोसिएट्स और ज्स्क्वैयर्ड के पार्टनर निखिल त ने कहा, भारत में गेमिंग वाले वर्षों में काफी आगे बढ़ने है और नजारा ने काफी खित व लाभकारी गेमिंग फॉर्म तैयार किया है, जो आने वर्षों में उपलब्ध मौके का दा उठाने के लिए बेहतर है। करेज फर्म प्रभुदास लीलाधर श्लेषकों का मानना है कि फंड स्तेमाल कंपनी की फ्रीमियम मिफाइड लर्निंग सेगमेंट की मौजूदगी के विस्तार में किया जा सकता है क्योंकि रियल मनी गेमिंग नियामकीय अड्चन का सामना कर रही है। हाल में जीएसटी पर होती है और इसका भारत के काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर नवाचार और पारिस्थितिकी तंत्र पर 28 फीसदी कर लगाने की घोषणा असर होता है। इससे लाखों नए की है। ग्राहकों को ई-कॉमर्स की अच्छाई

## फ्लिपकार्ट देगी 1 लाख से अधिक अस्थायी रोजगार

बीएस संवाददाता मुंबई, 4 सितंबर

> ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसने त्योहारी सीजन से पहले एक लाख से अधिक अस्थायी रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। कंपनी ने कहा कि त्योहारों के दौरान मांग पूरी करने के लिए वह अपनी आपूर्ति व्यवस्था में लोगों को रोजगार करने का मौका देगी।

फ्लिपकार्ट ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरह के रोजगार में स्थानीय किराना दकानदार और महिलाएं शामिल होंगी। इनमें विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्युडी) को भी रोजगार करने के अवसर दिए जाएंगे। कंपनी को त्योहारों से पहले अपनी आपूर्ति व्यवस्था में एक लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस बारे में फ्लिपकार्ट समूह में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत बद्री ने कहा, 'द बिग बिलियन डेज' (टीबीबीडी) की बिक्री बड़े पैमाने



का अनुभव करने का मौका मिलता है।' फ्लिपकार्ट टीबीबीडी बिक्री के दौरान शीर्ष ब्रांड के उत्पादों पर छट देती है।

वॉलमार्ट नियंत्रित फ्लिपकार्ट इस महीने के अंत में द बिग बिलियन डेज का आयोजन करेगी। बद्री ने कहा, 'इस वर्ष हमने अपने 40 प्रतिशत से अधिक ऑर्डर किराना आपूर्ति कार्यक्रम के जरिये पहुंचाने की योजना बनाई है। कंपनी प्रत्येक वर्ष अपनी आपूर्ति व्यवस्था मजबूत बनाने में जुटी हुई है। हम न केवल अपने साझेदारों को कारोबार करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहते हैं बल्कि अपने आपूर्ति तंत्र में भी उनका योगदान बढाना चाहते हैं।'

मुंबई संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, के लिए प्रकाशक एवं मुडक संगीता खेओरा द्वारा में. दांगट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 22, दीधा एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, विश्वा, नवी मुंबई-400708 से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एव/4, बिल्डिंग एव, पैरागन सेंटर, बिडला से पुरित एवं बिजनेस संधादकः कैलाश नौटियाला, आरएनआई नं, MAHHIN/2008/24325 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश गेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599

सबरिक्रण्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, करटमर सिलेशन्सविजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, जीसरी और यौथी मजिल, बिलिडंग एव, गैरामन सेंटर, रोचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्म, कर्ली, मुंबई 400 013 ईमेल... subs. bs@bsmail.in21 57575 पर एसएसएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं